

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20—सितम्बर 26, 2014 (भाद्रपद 29, 1936)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20—SEPTEMBER 26, 2014 (BHADRA 29, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2014

सं. 203, दिनांक 26 अगस्त 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

श्री उमेश कुमार को अतिरिक्त मुख्य संनिर्माण अभियन्ता, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 02 जुलाई 2014 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 4 में रु. 37,400—67,000/— (पी बी 4) एवं ग्रेड पे रु. 8,700/— पर।

श्री सौरभ नेगी को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 24 अप्रैल 2003 (पूर्वाह्न) से पै स्केल रु. 6,500—200—10,500/— पर।

राजीव रंजन सिन्हा
उप निदेशक (कार्मिक एए 2)

स्थायी आर्मी
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
स्थायी कमीशन

संख्या 204, दिनांक 26 अगस्त 2014—निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से स्थायी कमीशन दिया जाता है :—

एन एस से एन आर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	अल्प अवधि आयोग में कमीशन की तारीख	स्थायी कमीशन की तारीख
मेजर कुलदीप कौर	एन एस-21389 एम	03 सितंबर 2004	04 जनवरी 2014
मेजर कपिल पूजा सुशील	एन एस-21405 वाई	03 सितंबर 2004	04 जनवरी 2014
मेजर आरती रावत	एन एस-21407 के	03 सितंबर 2004	04 जनवरी 2014
मेजर सुग्रा बानो	एन एस-21414 ए	03 सितंबर 2004	04 जनवरी 2014
मेजर नीतु यादव	एन एस-21415 एच	03 सितंबर 2004	04 जनवरी 2014
मेजर अतुल्या देवी	एन एस-21420 एन	03 सितंबर 2004	04 जनवरी 2014
कैप्टन नित्या एस	एन एस-21831 एम	05 जनवरी 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन नेहा	एन एस-21833 एक्स	05 जनवरी 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन सरबजीत कौर मान	एन एस-21840 एन	05 जनवरी 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन एस अरोकियामरी	एन एस-21862 एम	05 जनवरी 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन दीप्तिराज सी	एन एस-21870 एल	16 मार्च 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन कविथाई सेन्दुरी वी जी एस	एन एस-21872 डब्ल्यू	16 मार्च 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन श्रीदेवी अचनघाट	एन एस-21876 एम	16 मार्च 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन अनीशा यू एम	एन एस-21881 एक्स	16 मार्च 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन पूनम गुप्ता	एन एस-21882 ए	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन श्वेता पी एच	एन एस-21883 एच	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन वी सरवणा कुमारी	एन एस-21895 एक्स	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन शालू नायर	एन एस-21900 एक्स	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टनम मैरी सोबिया सुगन्धी ए	एन एस-21902 एच	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन रेवती के	एन एस-21912 एम	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन ए सुभाषिनी	एन एस-21913 पी	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन कीर्ति रानी	एन एस-21918 एन	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन जयश्री टी	एन एस-21920 एल	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन सबियेश्वरी पी एल	एन एस-21921 एन	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन संगीता वी	एन एस-21937 वाई	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन सुमन लता	एन एस-21938 एफ	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन क्रिस्टीना इलियजर	एन एस-21971 वाई	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन कविता जी	एन एस-21973 के	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन सरिता सागर	एन एस-21975 पी	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन विजी टी	एन एस-21980 ए	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन अनु आर शशिधरन	एन एस-21992 पी	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन जी नागमनी	एन एस-21996 एल	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	अल्प अवधि आयोग में कमीशन की तारीख	स्थायी कमीशन की तारीख
कैप्टन एन बानुप्रिया	एन एस-22007 के	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन वनिता सी	एन एस-22010 के	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन राजी जॉर्ज	एन एस-22015 एच	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन स्मिता गुप्ता	एन एस-22019 वाई	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन रेनु राठौर	एन एस-22045 ए	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन पी बिनाक्का	एन एस-22053 वाई	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन दलजीत कौर	एन एस-22056 एम	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन स्वर्णा कुमारी ओगीरला	एन एस-22059 ए	15 जुलाई 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन बज्जल रजनी	एन एस-22069 के	23 नवंबर 2009	04 जनवरी 2014
कैप्टन रेखा कुमारी	एन एस-21604 एम	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन प्रेरणा शुक्ला	एन एस-21607 ए	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन पुष्पलता	एन एस-21610 ए	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन अबी जोस	एन एस-21614 डब्ल्यू	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन सुधा तमंग	एन एस-21615 वाई	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन रोनी के टी	एन एस-21617 के	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन जतिन्दर कौर	एन एस-21623 एक्स	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन दीपा के आर	एन एस-21624 ए	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन अनिता	एन एस-21626 एल	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन सरह मथाई	एन एस-21629 वाई	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन प्रियंका वी एम	एन एस-21631 डब्ल्यू	22 सितम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन नीलिमा खातून	एन एस-21638 ए	29 दिसम्बर 2006	15 जुलाई 2011
कैप्टन कलावती मीना	एन एस-21641 ए	29 दिसम्बर 2006	15 जुलाई 2011

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

अल्प अवधि आयोग

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी एफ एम एस/एम एन एस 2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 15 मई 2013 एम एस सी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता, (वैतनमान नियमित एवं पदोन्नति के लिये) 15 मई 2011 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं -

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले गायत्री सुब्बा	एन एस-23167 डब्ल्यू	20 अगस्त 1987
ले चित्रा के बी	एन एस-23187 के	17 सितंबर 1986

सुनीता कपूर
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

वायु शाखा

सं. 205, दिनांक 27 अगस्त 2014—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के प्रावधानों के तहत 50 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के आगे लिखी तारीख से पलाइंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)

पलाइंग अफसर मनाली पटेल (31660), अकांक्षा शर्मा (31690) 03 जनवरी 11 से प्रभावी।

पलाइंग अफसर समीर मेहरा (31649), आर राकेश (31657), अमनप्रीत कौर (31684), अनुपमा झा (31694), राजबीर कौर (31695) 03 जनवरी 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत निम्नलिखित अफसरों को फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थाई अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

फ्लाईंग अफसर देवी प्रसाद हजारी (32024) 17 जुलाई 11 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी) शाखा

फ्लाईंग अफसर अजय मगो (31953), स्वाति सचदेवा (31997) 04 जुलाई 11 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर डोनाकोडा श्रवण कुमार (32038) 17 जुलाई 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के प्रावधानों के तहत 50 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों को प्रदान की गई अस्थाई अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के आगे लिखी तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक)

फ्लाईंग अफसर अनुपमा झा (31694) 02 जनवरी 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के प्रावधानों के तहत 50 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों को प्रदान की गई अस्थाई अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के आगे लिखी तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक)

फ्लाईंग अफसर समीर मेहरा (31649), आर राकेश (31657), अमनप्रीत कौर (31684), राजबीर कौर (31695) 02 जुलाई 12 से प्रभावी।

तरुण खरे

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक, कार्मिक अफसर-3(डी)

सं. 206, दिनांक 27 अगस्त 2014—राष्ट्रपति, अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

क्र. सं.	रैंक	नाम	सेवा सं०	शाखा
1	फ्लाईंग अफसर	भाटिया ईशान योगेशभाई	32199	प्रशा.
2	फ्लाईंग अफसर	मोहित शर्मा	32200	प्रशा.
3	फ्लाईंग अफसर	शिवम सिन्हा	32201	प्रशा.
4	फ्लाईंग अफसर	अमन महाजन	32202	प्रशा.
5	फ्लाईंग अफसर	अर्जुन सिंह	32203	प्रशा.
6	फ्लाईंग अफसर	निशान्त बाली	32204	प्रशा.
7	फ्लाईंग अफसर	अभिषेक	32205	प्रशा.

29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

क्र. सं.	रैंक	नाम	सेवा सं०	शाखा
8	पलाइंग अफसर	हरजीत सिंह पुंडीर	32206	संभा
9	पलाइंग अफसर	जुल्फीकार हसन	32207	संभा
10	पलाइंग अफसर	अजय कुमार ठाकुर	32208	संभा
11	पलाइंग अफसर	दीपक सेजवाल	32209	संभा
12	पलाइंग अफसर	एंजेलो बॉस्को दास	32210	संभा

29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

क्र. सं.	रैंक	नाम	सेवा सं०	शाखा
13	पलाइंग अफसर	चरणराज भारतीय पालीवाल	32211	शिक्षा
14	पलाइंग अफसर	पंकज रावत	32212	शिक्षा
15	पलाइंग अफसर	विजय कुमार अय्यलासोम्याजुला	32213	शिक्षा

29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

पलाइंग अफसर मीनल पंत (32219), अकांक्षा पांडे (32220), अभिलाषा गौतम (32221), रेशुता लाकरा (32222), शेबा घोष (32223), संध्या कुमारी (32224), शिप्रा बिष्ट (32225), उर्वशी बलोरिया (32226), निकिता मार्कण्डेय (32227), आशिमा गेरा (32228), योगिता मेहता (32229), प्रीति यादव (32230), चांगनीथम किप्पेन (32231) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

पलाइंग अफसर श्री लक्ष्मी (32232), ईशा बहल (32233), जागृति मुखर्जी (32234), रिनी त्रिपाठी (32235), स्वाती नेगी (32236), सोनिया पुरी (32237) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

लेखा शाखा

पलाइंग अफसर ओशनी सोइन (32238), सौम्या सेठ (32239), चारु सिंह (32240), पुरुषोत्तमन ससिकलादेवी अखिला (32241), अफशान अख्तर (32242), नीशा कुमारी (32243) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

पलाइंग अफसर अदिति घोष (32391) 26 अप्रैल 12 से प्रभावी।

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)

पलाइंग अफसर रोहित कुमार (32029) 02 जुलाई 12 से प्रभावी।

तरुण खरे
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक कार्मिक अफसर-3(डी)

थल सेना शाखा

सं. 207, दिनांक 28 अगस्त 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

सर्ज रियर एडमिरल (व समकक्ष) से सर्ज वाइस एडमिरल (व समकक्ष) के पद पर

- (क) सुशील कुमार 01-03-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-03-14 से दी जाती है।
एवीएसएम, एनएम, वीएसएम
(एमआर-03681वाई/75216डब्ल्यू)

यश पांडे
मेजर जनरल
अपर महानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं)

थल सेना शाखा

सं. 208, दिनांक 28 अगस्त 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं ।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

(क)	एम डी वेंकटेश, वीएसएम (एमआर-04139पी)	— 01-07-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-07-13 से दी जाती है ।
(ख)	शरत जौहरी, वीएसएम (एमआर-05092एफ)	— 11-09-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-13 से दी जाती है ।
(ग)	बिपिन पुरी (एमआर-03993पी)	— 09-09-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-09-13 से दी जाती है ।
(घ)	पवन कपूर, वीएसएम (एमआर-04049एन)	— 01-10-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-09-13 से दी जाती है ।
(ङ)	सी एस नारायणन, वीएसएम (एमआर-04173पी)	— 01-12-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-12-13 से दी जाती है ।

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के पद पर

(क)	आर घुलियानी (एमआर-04734वाई)	— 15-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-12-11 से दी जाती है ।
(ख)	एस भटनागर (एमआर-04735एफ)	— 03-09-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-04-12 से दी जाती है ।

ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) से एयर कमांडोर (व समकक्ष) के पद पर

(क)	दलजीत सिंह (एमआर-04896के)(17403आर)	— 15-07-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-06-13 से दी जाती है ।
-----	---------------------------------------	--

सर्ज कमांडर (व समकक्ष) से सर्ज कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

(क)	एम इलानकुमारन (एमआर-06586एक्स)(75548जेड)	— 13-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-09-12 से दी जाती है ।
(ख)	के जिनजिल (एमआर-06506पी)(75544आर)	— 21-08-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-09-12 से दी जाती है ।
(ग)	मनु वेंकटेशन (एमआर-06507एक्स)(75543एन)	— 16-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-09-13 से दी जाती है ।
(घ)	एस दत्ता (एमआर-06601एफ)(75560ए)	— 22-08-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-13 से दी जाती है ।
(ङ)	पी के श्रीवास्तव, वीएसएम (एमआर-07792एम)(75606एफ)	— 05-06-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-05-13 से दी जाती है ।

(च)	अनील पिल्लई सी (एमआर-06606ए)(75561बी)	—	29-06-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 13-05-13 से दी जाती है ।
(छ)	रोहित शर्मा (एमआर-06550वाई)(75555आर)	—	01-07-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 22-06-13 से दी जाती है ।
(ज)	जे श्रीधर (एमआर-06553एम)(75557डब्ल्यू)	—	01-07-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27-06-13 से दी जाती है ।
(झ)	ए के पांडे (एमआर-06561एल)(75578टी)	—	01-07-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-07-13 से दी जाती है ।
(ञ)	एस रे (एमआर-06806डब्ल्यू)(75590डब्ल्यू)	—	01-11-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-10-13 से दी जाती है ।

ले.कर्मल (व समकक्ष) से कर्मल (व समकक्ष) के पद पर

(क)	सुशील कुमार (एमआर-07148एफ)	—	02-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-01-12 से दी जाती है ।
(ख)	एम एस रॉय (एमआर-06285एन)	—	08-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-01-12 से दी जाती है ।
(ग)	एच सेटी (एमआर-06323वाई)	—	24-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-02-12 से दी जाती है ।
(घ)	पी बी मुखर्जी (एमआर-06136ए)	—	02-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-10 से दी जाती है ।
(ङ)	एन मुखर्जी (एमआर-06152एक्स)	—	03-05-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-04-11 से दी जाती है ।
(च)	सलील गर्ग (एमआर-06268एन)	—	01-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-11 से दी जाती है ।
(छ)	के मोहनलाल (एमआर-06726वाई)	—	27-09-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-01-12 से दी जाती है ।
(ज)	पी के धगत (एमआर-06355एफ)	—	02-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-05-12 से दी जाती है ।
(झ)	ए के सिंह (एमआर-06386एफ)	—	01-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-07-12 से दी जाती है ।
(ञ)	आर गणेश (एमआर-06036पी)	—	17-08-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-02-13 से दी जाती है ।
(ट)	एन एस जरीयल (एमआर-06162एफ)	—	22-03-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-02-13 से दी जाती है ।
(ठ)	वी एम चंद्रन (एमआर-06235एच)	—	04-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-02-13 से दी जाती है ।
(ड)	ए के मित्रा (एमआर-06277पी)	—	24-03-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19-02-13 से दी जाती है ।

- (ढ) नरेंद्र कुमार — 08-08-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता
(एमआर-06374एम) 28-02-13 से दी जाती है ।

धर्मवीर सिंह
ब्रिगेडियर
उपमहानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं.)

वायु सेना

सं. 209, दिनांक 29 अगस्त 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थायी पदोन्नति करते हैं :-

भारतीय वायुसेना

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टी एस) के स्थायी रैंक पर

एफ (पी) शाखा

एस श्रीवास्तव (18569),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
वी ए कुलकर्णी (18589),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
एस के द्विवेदी (18693),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एस गुप्ता (18595),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
--------------------	-------------------------

प्रशासनिक शाखा

आर के अरोड़ा (18626),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
आर चन्द्रा (18612),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
आर के सैनी (18606),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
टी पी वालिया (18634),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
जे पी एस जस्सल (18625),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
ए सिंघा (18615),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
पी के शर्मा (18617),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
ए गोयल (18605),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
एस एस ठाकुर (18628),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
ए एस करकरे (18607),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
वी एस राधाकृष्णन (18621),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
बी नाग (18629),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
ए पी इंग्ले (18627),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

आई वी कृष्णा राव (18645),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
ए श्रीवास्तव (18651),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
ए रावत (18650),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
आर के सिंह (18639),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
टी श्रीनिवास राव (18653),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी

लेखा शाखा

एच वी तिवारी (18658),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
ए आर फ्रैंकलिन (18662),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी
के के मिश्रा (18664),	06 दिसंबर 12 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

ए पाण्डे (18620),	16 दिसंबर 12 से प्रभावी (नोशनल सिनियोरटी दिनांक 06 दिसंबर 12 से प्रभावी)
-------------------	---

ए ई (एम शाखा)

पी मुल्लागिरी (19416),	06 मार्च 13 से प्रभावी
आर संगल (19415),	06 मार्च 13 से प्रभावी
डी एस पाई (19414),	06 मार्च 13 से प्रभावी
पी के वत्स (19422),	06 मार्च 13 से प्रभावी
एस बोस (19408),	06 मार्च 13 से प्रभावी
ए कुमार (19412),	06 मार्च 13 से प्रभावी
टी मोहनराज (19099),	06 मार्च 13 से प्रभावी
वी मित्तल (19420),	06 मार्च 13 से प्रभावी
जी वर्गीस (19419),	06 मार्च 13 से प्रभावी
आर बहादुर (19423),	06 मार्च 13 से प्रभावी

ए ई (एल शाखा)

एच के श्रीवास्तव (19591),	06 मार्च 13 से प्रभावी
के असाईथम्बी (19039),	06 मार्च 13 से प्रभावी
के एस बेन्स (19428),	06 मार्च 13 से प्रभावी
ए डी सैनी (19425),	06 मार्च 13 से प्रभावी

स्ववाङ्मन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक पर

स्थायी कमीशन

प्रशासनिक शाखा

प्रमोद कुमार (25369),	19 दिसम्बर 11 से प्रभावी
-----------------------	--------------------------

संभारिकी शाखा

राव सुदर्शन के बी (25383), प्रवीण कुमार सिंह (25390), रमाकांत शर्मा (25380)—	19 दिसम्बर 11 से प्रभावी
--	--------------------------

प्रशासनिक शाखा

मनप्रीत सिंह (25671),	19 जून 12 से प्रभावी
-----------------------	----------------------

एफ (एन) शाखा

नायर श्रीहरि बायाकुमारन शाइलाजाकुमारी (25356)	19 दिसम्बर 11 से प्रभावी
---	--------------------------

प्रशासनिक शाखा

वडाकेमाधूम वेणु (25359),	19 दिसम्बर 11 से प्रभावी
--------------------------	--------------------------

स्ववाङ्मन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

मनिक भारद्वाज (25898),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
फर्नांडो सी सी डकोस्टा (25889),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
अभिषेक सिंह (25892),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
तिथि सुनील वासुदेव (25900),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
विरोहित कुमार तोमर (25897),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
पंकज कुमार झा (25895),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
धनेश कुमार सिंह (25896),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
अजय पाल सिंह (25899),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
सुरेश कुमार (25891),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
संदीप कुमार शर्मा (25894),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
मामिदी रामबाबू (25890),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

अभिषेक त्रिपाठी (25903),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
शैलेन्द्र कुमार जैन (25917),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
ऋषि देव यादव (25911),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
कविराज चौहान (25906),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
तीरथ सिंह (25914),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
राहुल जैन (25915),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
मोरम आनंद राव (25901),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
टॉमी वर्गीस (25908),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
राहुल शर्मा (25918),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
के जी मनोज (25907),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
के एम राकेश (25910),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
आर एस कुमार (25912),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
अनिल करुणाकरण नायर (25902),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
नरेन्द्र सिंह (25909),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
सुनील मैथ्यूज (25916),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
सुब्रामय्या श्रीनिधि (25913),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

राहुल श्यामन (26410),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
के सी सुनीश (26413),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
डांडिया सरफरोजुद्दीन (26415),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
नवीन शर्मा (26416),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
निशांत बाघा (26417),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
अरविंद आर कोलेकर (26418),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
बिमलजीत सिंह सूदन (26419),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
अजय गोपीनाथन नायर (26420),	07 जनवरी 13 से प्रभावी

टी आर पदमराज (26421),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
दिग्विजय सिंह (26422),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
मानस चौधरी (26423),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
सुधीर शर्मा (26424),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
शुभ्रो घोषाल (26454),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
बसवराज सी पाटिल (26507),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
हरीश जी जोशी (26406),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
राहुल यादव (26407),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
सुमित कुमार वशिष्ठ (26408),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
थेंदप नंग्याल (26402),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
कुलवंत सिंह (26403),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
आर आनंदकुमार (26404),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
सतुकुट्टी पद्मनाभन पदमराजन (26405),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
गौतम कैस्था (26400),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
आर कार्तिकेयन (26399),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
जी आई गिरिजेश (26398),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
जे जयराज (26411),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
ए ई (एल) शाखा	
अमित शर्मा (26439),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
राजीव सिंह (26438),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
राजीव कुमार (26510),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
नितिन कुमार गुप्ता (26509),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
एल एंथनी मदान (26442),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
सुबी चन्द्रन (26443),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
एस एन सुधीन्द्र (26444),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
अमित रिसूत्रा (26425),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
नीरज अग्रवाल (26426),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
सर्वेश राय (26427),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
एस युवराज (26429),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
आशीष कुमार कौशल (26431),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
आदित्येन्द्रा तिवारी (26446),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
पराग जयंत बडकास (26447),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
अभिजीत कौशिक (26448),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
मुनीष महेन्द्रू (26449),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
संदीप सुभाष (26450),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
सुमित यादव (26452),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
संजय कुमार साहू (26453),	07 जनवरी 13 से प्रभावी

आनंद प्रसाद (26455),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
अरिफुर रहमान खान (26456),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
रोहित चन्द्रा (26508),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
दीपक मिश्रा (26432),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
एस प्रशांत अमितानंद (26434),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
एस शिवाकुमार (26428),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
दीपेश शाहजी (26433),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
वी एम दामोदरन (26441),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
डी रोज चंद्रन (26445),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
आर वी पाल्दीकर (26451),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
थॉमसन जॉर्ज (26436),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
एल भोगन सिंह (26435),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
नरेश कुमार त्यागी (26437),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
	एफ (पी) शाखा
सुजाता द्विवेदी (25919),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
	ए ई (एल) शाखा
हरि चंद मान (25814),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
एन नागराजन (25815),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
	प्रशासनिक शाखा
महिमा शर्मा (25926),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
गरिमा शर्मा (25923),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
रोहिना सक्सेना (25925),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अनीशा हतवाल (25921),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सुजाता तिवारी (25928),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
मंजु भास्कर (25922),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
रीना कुमारिया (25924),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
	संभारिकी शाखा
सीमा कनौजिया (25931),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
कुलजिंदर हुंदा (25930),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
जशस्वी राथ (25932),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
ऋचा मार्कण्डेय (25929),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
	एफ(एन) शाखा
ए वी रेड्डी (25881),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
वेबस्टर सिलवन वास (25879),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
आर के रेड्डी (25880),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
वाई ए कुमार (25888),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
कुलदीप सिंह असवाल (25883),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी

अपराजित बिष्ट (25878),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
जेरी मैथ्यू (25884),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
राहुल चंद (25882),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अंकुश सहाय (25887),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
	प्रशासनिक शाखा
वी एस शिवतारे (25885),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
	एफ(पी) शाखा
समीर मेहरा (25855),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
प्रशांत ग्रोवर (25820),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सचिन आनंद गदरे (25846),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
नरेन्द्र सिंह पंवार (25833),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
एल्विस विलन्टन रॉड्रिग्स (25823),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
पी सिवराम (25840),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
एस गुनसकरन (25830),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
के सोमनाथन (25874),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
एफ ए सिंह (25868),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
एम परगुनन (25857),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
आनंद अरुण निसाल (25862),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सचिन गुप्ता (25854),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
साई प्रसाद डोरा (25849),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विक्रान्त यादव (25844),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
रीतम कुमार (25837),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
शिवांग कुमार (25877),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विनॉय कुटप्पन (25875),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
गौतम नारायण (25873),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
तरुण कुमार चौधरी (25871),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
जुबेर ए वाई शेख (25866),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
आशीष बी धनाके (25863),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
धर्मराज हरिहरन (25856),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
दीपेश कुमार (25853),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
ज़ेजो पोथेन (25851),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
राहुल शुक्ला (25845),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
प्रेम आनंद (25842),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
उज्ज्वल गोविल (25841),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
जॉर्ज जोसेफ (25835),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अरनव नाथ (25834),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
तरुण गुप्ता (25824),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी

हरप्रीत सिंह लूथरा (25821),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अनुराग खुराना (25819),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अर्जुना विनोबा (25876),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विनीत कुमार जोशी (25872),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सुनील कुमार देशवाल (25870),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अमित सरमाई (25869),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
समीर शर्मा (25864),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
प्रशांत सीताराम चव्हाण (25861),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
संदीप कुमार आहुजा (25852),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
हुवे उपाध्याय (25850),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
तुषार श्रीधर वैध(25839),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अरविंद कुमार (25836),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
देवर्षि बागची (25832),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
करम हीरोजीत सिंह (25826),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
गिरीश दंताले (25822),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
	प्रशासनिक शाखा
राकेश कुमार (25847),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
	एफ(पी) शाखा
सुभाष सिंह राव (25827),	03 जनवरी 13 से प्रभावी (सैद्धांतिक वरिष्ठता 18 दिसंबर 12 से प्रभावी)
	अल्प सेवा कमीशन
	ए ई(एल) शाखा
डॉली देवगण (25808),	26 जुलाई 12 से प्रभावी
	पलाइट लेपिटनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के स्थायी रैंक पर
	ए ई (एम) शाखा
संदीप राणा (29603),	27 जून 12 से प्रभावी
	ए ई (एल) शाखा
श्रीराम नटराजन (29630)	27 जून 12 से प्रभावी
जयकृष्णन थेक्कुम्पट्ट (29627)	27 जून 12 से प्रभावी
चेतन गोंसाई (29620)	27 जून 12 से प्रभावी
साकेत सहगल (29617)	27 जून 12 से प्रभावी
शौर्य वाजपेयी (29616)	27 जून 12 से प्रभावी
एस शर्मा (29648)	27 जून 12 से प्रभावी
संदीप शर्मा (29615)	27 जून 12 से प्रभावी
कवि प्रसाद दास (29614)	27 जून 12 से प्रभावी
पंकज नारायण (29608)	27 जून 12 से प्रभावी
आशीष वशिष्ठ (29604),	27 जून 12 से प्रभावी

ए लुइस (29672),	27 जून 12 से प्रभावी
छेरामन्नन सी (29650),	27 जून 12 से प्रभावी
टी एस बाबा (29649),	27 जून 12 से प्रभावी
अमित कुमार लावनिया (29640),	27 जून 12 से प्रभावी
प्रेमवीर सिंह (29639),	27 जून 12 से प्रभावी
प्रीतपाल सिंह (29644),	27 जून 12 से प्रभावी
अपूर्व गौरव (29643),	27 जून 12 से प्रभावी
सन्नी धनराज शर्मा (29642),	27 जून 12 से प्रभावी
अंशुमन होटा (29641),	27 जून 12 से प्रभावी
फहाद कमाल (29638),	27 जून 12 से प्रभावी
सुमीत कुमार (29636),	27 जून 12 से प्रभावी
किशन चन्द्र त्रिपाठी (29633),	27 जून 12 से प्रभावी
अंकित दीक्षित (29647),	27 जून 12 से प्रभावी
तनिश अरोड़ा (29646),	27 जून 12 से प्रभावी
राहुल त्रिपाठी (29629),	27 जून 12 से प्रभावी
विजित कुमार (29626),	27 जून 12 से प्रभावी
फिदाउल्लाह ज़पफारी (29625),	27 जून 12 से प्रभावी
शुभांशु श्रीवास्तव (29624),	27 जून 12 से प्रभावी
अनिल शर्मा (29623),	27 जून 12 से प्रभावी
विपुल उपाध्याय (29621),	27 जून 12 से प्रभावी
नवनीत गौर (29612),	27 जून 12 से प्रभावी
शलभ शर्मा (29611),	27 जून 12 से प्रभावी
वी आर के मुप्पा (29609),	27 जून 12 से प्रभावी
अंकित शर्मा (29619),	27 जून 12 से प्रभावी
जय भारती माथुर (29632),	27 जून 12 से प्रभावी
दीपक शर्मा (29631),	27 जून 12 से प्रभावी
	एफ (एन) शाखा
ए शर्मा (29050),	17 जून 12 से प्रभावी
अभिषेक पाण्डे (29004),	17 जून 12 से प्रभावी
एस बी चंदपुरकर (29019),	17 जून 12 से प्रभावी
एम एम सिंह (29044),	17 जून 12 से प्रभावी
आर जे राणे (29068),	17 जून 12 से प्रभावी
ए जे तावडे (29016),	17 जून 12 से प्रभावी
पी नय्यर (28997),	17 जून 12 से प्रभावी
	प्रशासनिक शाखा
बी श्रीनिवास राव (29072),	17 जून 12 से प्रभावी
के श्रीनिवास राव (29084),	17 जून 12 से प्रभावी

आर रंजीत (29074),	17 जून 12 से प्रभावी
राजीव चौहान (29086),	17 जून 12 से प्रभावी
रोहन हेरेडिया (29073),	17 जून 12 से प्रभावी
जी श्रीनिवास रेड्डी (29079),	17 जून 12 से प्रभावी
अक्षय कुमार (29080),	17 जून 12 से प्रभावी
जी एस गण्डोक (29082),	17 जून 12 से प्रभावी
विशाल सिंह जसरोतिया (29081),	17 जून 12 से प्रभावी
	संभारिकी शाखा
आर भास्करन (29089),	17 जून 12 से प्रभावी
आर सतीश नायर (29088),	17 जून 12 से प्रभावी
	लेखा शाखा
जी डी शर्मा (29091),	17 जून 12 से प्रभावी
वी सोनी (29093),	17 जून 12 से प्रभावी
	शिक्षा शाखा
जे श्रीप्रकाश (29097),	17 जून 12 से प्रभावी
एम सुब्बा राव (29094),	17 जून 12 से प्रभावी
यू एस साहू (29095),	17 जून 12 से प्रभावी
एम कुमार (29096),	17 जून 12 से प्रभावी
	एफ (पी) शाखा
धर्मेन्द्र सुन्दा (29061),	17 जून 12 से प्रभावी
एस एस डागुर (29046),	17 जून 12 से प्रभावी
बी एस राव (29060),	17 जून 12 से प्रभावी
आनंद कुमार यादव (29059),	17 जून 12 से प्रभावी
उत्कर्ष सिंह (29015),	17 जून 12 से प्रभावी
एस शुक्ला (29014),	17 जून 12 से प्रभावी
जी मित्तल (29005),	17 जून 12 से प्रभावी
विषक नायर (28993),	17 जून 12 से प्रभावी
बी दाश (29070),	17 जून 12 से प्रभावी
आर डी मंगरूलकर (29058),	17 जून 12 से प्रभावी
एस कुलकर्णी (29055),	17 जून 12 से प्रभावी
एन मेहरोत्रा (29022),	17 जून 12 से प्रभावी
अजय दशरथी (29003),	17 जून 12 से प्रभावी
आर हंस (29002),	17 जून 12 से प्रभावी
ए तिवारी (29001),	17 जून 12 से प्रभावी
आर चौधरी (29009),	17 जून 12 से प्रभावी
प्रवीण (29007),	17 जून 12 से प्रभावी
ओमर ब्राउन (29006),	17 जून 12 से प्रभावी

ए सक्सेना (29020),	17 जून 12 से प्रभावी
बी मल्होत्रा (29042),	17 जून 12 से प्रभावी
वी मिश्रा (29030),	17 जून 12 से प्रभावी
एन के पाण्डे (29025),	17 जून 12 से प्रभावी
जी सिकरी (29024),	17 जून 12 से प्रभावी
राहुल रावत (29023),	17 जून 12 से प्रभावी
एम के पाण्डे (29027),	17 जून 12 से प्रभावी
पी के कदयन (29026),	17 जून 12 से प्रभावी
आर आर विवेक (29065),	17 जून 12 से प्रभावी
एन एस बहुआ (29021),	17 जून 12 से प्रभावी
आर राणा (29013),	17 जून 12 से प्रभावी
एम शर्मा (29012),	17 जून 12 से प्रभावी
ए हयंकी (29000),	17 जून 12 से प्रभावी
ए घोष (28999),	17 जून 12 से प्रभावी
गौरव सिंह (28996),	17 जून 12 से प्रभावी
टी दयाल शर्मा (29051),	17 जून 12 से प्रभावी
रणवीर कुमार ठाकुर (29064),	17 जून 12 से प्रभावी
शिवम पी के वासन (29063),	17 जून 12 से प्रभावी
ए अहलावत (28994),	17 जून 12 से प्रभावी
हरिओम दूबे (29029),	17 जून 12 से प्रभावी
वी जायसवाल (29028),	17 जून 12 से प्रभावी
ए अग्रवाल (29062),	17 जून 12 से प्रभावी
आर के सिन्हा (29054),	17 जून 12 से प्रभावी
एच डी गाला (29069),	17 जून 12 से प्रभावी
रोहित रंजन (29066),	17 जून 12 से प्रभावी
के पी सिंह (29017),	17 जून 12 से प्रभावी
सचिन कुमार (29032),	17 जून 12 से प्रभावी
एच पाण्डे (29041),	17 जून 12 से प्रभावी
ए के भरमोरिया (29039),	17 जून 12 से प्रभावी
जी शर्मा (29038),	17 जून 12 से प्रभावी
जी आर खर्चे (29037),	17 जून 12 से प्रभावी
टी ओझा (29043),	17 जून 12 से प्रभावी
एन तारे (29045),	17 जून 12 से प्रभावी
क्रिस्टल जॉर्ज वर्गीस (29011),	17 जून 12 से प्रभावी
पी के ठाकुर (29010),	17 जून 12 से प्रभावी
एस चतुर्वेदी (29049),	17 जून 12 से प्रभावी
अभिषेक (29048),	17 जून 12 से प्रभावी

एस ठाकुर (29035),	17 जून 12 से प्रभावी
के एम ए आयुष (29034),	17 जून 12 से प्रभावी
जे एस संघू (29033),	17 जून 12 से प्रभावी
एस सूद (29036),	17 जून 12 से प्रभावी
एस राय (29052),	17 जून 12 से प्रभावी
	एफ (एन) शाखा
सी प्रकाश (28998),	17 जून 12 से प्रभावी
	प्रशासनिक शाखा
दासगुप्ता अनिन्दिता (29110),	03 जून 12 से प्रभावी
	ए ई (एम) शाखा
के मदन कुमार (29155),	03 जुलाई 12 से प्रभावी
आर आर पलनाती (29156),	03 जुलाई 12 से प्रभावी
आर के ठाकुर (29598),	29 जून 11 से प्रभावी
	ए ई (एल) शाखा
डी के सैनी (29600),	29 जून 11 से प्रभावी
के एस मेहलावत (29599),	29 जून 11 से प्रभावी
	प्रशासनिक शाखा
(सुश्री) पूजा खन्ना (29113),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) एन बधानी (29118),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) ललिता रेखारी (29114),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) जी ग्रीष्मा (29103),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) शालिनी (29107),	17 जून 12 से प्रभावी
(श्रीमती) कविता दहिया (29108),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) दिव्या बंसल (29109),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) रोहिणी सिंह (29115),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) पूजा सिंह (29116),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) प्रियंका पंत (29105),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) एन शर्मा (29104),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) आभा टंडन (29111),	17 जून 12 से प्रभावी
	संभारिकी शाखा
(सुश्री) सिद्धि तमराकर (29120),	17 जून 12 से प्रभावी
	लेखा शाखा
(सुश्री) रूपेन्दर कौर (29124),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) पी गौर (29121),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) रचना शाह (29123),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) जिशा के (29122),	17 जून 12 से प्रभावी

	शिक्षा शाखा
(सुश्री) पल्लवी पोन्नप्पा (29125),	17 जून 12 से प्रभावी
	मौसम विज्ञान शाखा
(सुश्री) एकता बोथरा (28639),	17 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) पूनम धिल्लियाल (28638),	17 जून 12 से प्रभावी
	फ्लाइट अफसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के स्थायी रैंक पर
	स्थायी कमीशन
	ए ई (एम) शाखा
कोर्डे विद्यासागर लहानु (31366),	05 जुलाई 12 से प्रभावी
	ए ई (एल) शाखा
आर शर्मा (31391), ए कांडासामी (31399),	05 जुलाई 12 से प्रभावी
	ए ई (एम) शाखा
साइराम एस (31271), अक्षय शांताराम जोशी (31280),	30 जून 11 से प्रभावी
	ए ई (एल) शाखा
जसविंदर सिंह (31312),	30 जून 11 से प्रभावी
	एफ (पी) शाखा
वैभव कपूर (31478),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
नंदीप चौतिपरबिल शैजन (31430),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
वीनूदास के (31474),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
रजत सिंह (31471),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
बुधवीर सिंह (31470),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
राहुल श्रीवास्तव (31465),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अविनाश प्रताप (31462),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
करन त्यागी (31455),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
राहुल लावंड (31448),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अमनदीप सिंह मल्ही (31446),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
चंदन सिंह राठौर (31489),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
हिमांशु शर्मा (31487),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सूरज कुलकर्णी (31467),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अतुल कुमार शर्मा (31494),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विपिन कुमार नायर (31490),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
आदर्श ठाकुर (31486),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
शोभित मिश्रा (31485),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
बिनाय तिंगबैजम (31484),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विनीत सिंह (31476),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
लल्लिनसंगा (31473),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
ईशान मिश्रा (31469),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी

अभिषेक कानयाल (31466),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विष्णु राजेन्द्रन (31463),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
निरंजन बी एन (31460),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
महित कुमार लमोरिया (31459),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सुमेध अंजत कुमार डेथे (31458),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विवेकानंद ए नालगे (31457),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
शशि प्रकाश सिंह (31452),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विकास मदान (31451),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अनिमेष कुमार लांबा (31450),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सिद्धार्थ रावत (31447),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अपूर्वा राणा (31445),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
प्रिंस मिश्रा (31444),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
मनिक भल्ला (31443),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
मनमीत सिंह नारंड (31442),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
शशांक भार्गव (31440),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अंकित भल्ला (31437),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विकास शाह (31436),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
राजकुमार जॉन हार्वर्ड (31488),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
प्रकाश बंदू शिंदे (31461),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
गौतम कुमार (31483),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
मयंक कुशवाहा (31472),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
उमेश कुमार (31438),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अंशु श्रीवास्तव (31496),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
गौरव राजपूत (31492),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
मनीष शर्मा (31464),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
बल्लाना रंजित कुमार (31482),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विजय कुमार डी जेंडे (31454),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
वर्धनेशील चतुर्वेदी (31435),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
माहेश्वरी सिंह जाम्वल (31433),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
संजीव कुमार रावत (31432),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
प्रवीण तिवारी (31431),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
प्रवीण शुक्ला (31475),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
तान्या श्रीनिवास (31565),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
संवेदिता सिंह (31562),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
शैली अग्रवाल (31561),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
योगिता सिंह (31559),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अंजु गहलोट (31564),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी

प्रीत मारिया डिसूजा (31560),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
कविता आनन्द प्रभु (31566),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
जी एल विनीत (31529),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
चेतन पी राउत (31539),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
कपिल चौधरी (31548),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सौरभ झा (31544),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
एबि जोसेफ (31543),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अनुपम अरोड़ा (31535),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
हितेश मुरलीधर (31517),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
जैनेन्द्र दत्ता (31534),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
नागार्जन (31551),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
मनोज मनुवेल (31552),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अक्षय अग्रवाल (31541),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
एलैन जॉर्ज पी (31525),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
आशु सक्सेना (31536),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
आशीष माथुर (31524),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
प्रशांत सिंह (31523),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
हर्षद भगवन्त मोरे (31521),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
जूड परेरा (31518),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सुमित शर्मा (31522),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
चिल्का कल्याण (31540),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
प्रीत तोमर (31542),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सुहास एस नायर (31546),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
हर्षा (31547),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
वरुण पांसे (31549),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सुजय भजनेहट्टी (31526),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
आशुतोष कषीकर पी (31527),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सिबि चक्रवर्ती इलेंगोवन (31528),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अजीत कुमार (31530),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अतुल भास्कर मिश्रा (31531),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
जजमीत सुभलोक (31519),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
शॉविक कुमार घोष (31533),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
रोहित एस सांबयाल (31537),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
शंकर सिंह बिष्ट (31538),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
वरुण भुटानी (31520),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

अभिनव गर्गमुख (31439),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
जे सतीश कुमार (31434),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
तनुश्री बादल (31563),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सतीश कुमार गुप्ता (31532),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विशाल विक्रम सिंह (31545),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अनंत श्रीवास्तव (31495),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
कुशल वी शेट्टार (31491),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
मनस मुकूल थाट्टे (31441),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विशाल एच जोशी (31449),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
विनिगल्ला रवि कुमार (31453),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
रवीश चौधरी (31456),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
मनीष कुमार ठाकुर (31468),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
अभिमन्यु नांदल (31477),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
कुमल बरपट्टे (31493),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
श्याम सुंदर वाजपेयी (31481),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी
पुलकित कुमार शर्मा (31550),	18 दिसम्बर 12 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

ए कुलश्रेष्ठ (31189),	19 जून 12 से प्रभावी
राहुल झा (31191),	19 जून 12 से प्रभावी
डी कुमार (31188),	19 जून 12 से प्रभावी
एस के सोनी (31187),	19 जून 12 से प्रभावी
पी एस बामराह (31182),	19 जून 12 से प्रभावी
वी गौड़ (31185),	19 जून 12 से प्रभावी
ए शर्मा (31184),	19 जून 12 से प्रभावी
पी पाण्डे (31183),	19 जून 12 से प्रभावी
वी पटनायक (31186),	19 जून 12 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

ए खान (31200),	19 जून 12 से प्रभावी
आर शर्मा (31201),	19 जून 12 से प्रभावी
एस के सिंह (31197),	19 जून 12 से प्रभावी
सनी नैन (31193),	19 जून 12 से प्रभावी
के एस तेओतिया (31194),	19 जून 12 से प्रभावी
एस सिंह (31195),	19 जून 12 से प्रभावी
ए के पाण्डे (31192),	19 जून 12 से प्रभावी
एस जैकब (31198),	19 जून 12 से प्रभावी
जी आर हरलिकर (31196),	19 जून 12 से प्रभावी

	शिक्षा शाखा
एस के मिश्रा (31205),	19 जून 12 से प्रभावी
प्रशांत गुप्ता (31202),	19 जून 12 से प्रभावी
ए एन ठाकुर (31203),	19 जून 12 से प्रभावी
एस के पांडे (31204),	19 जून 12 से प्रभावी
	मौसम विज्ञान शाखा
मदन गोपाल (30680),	19 जून 12 से प्रभावी
	प्रशासनिक शाखा
पी भट्ट (31226),	19 जून 12 से प्रभावी
अर्पित नेगी (31225),	19 जून 12 से प्रभावी
प्रवीण कुमार (31224),	19 जून 12 से प्रभावी
बी संदीप कृष्णन (31221),	19 जून 12 से प्रभावी
आर के पाण्डे (31220),	19 जून 12 से प्रभावी
एस मिश्रा (31231),	19 जून 12 से प्रभावी
एन के यादव (31230),	19 जून 12 से प्रभावी
	संभारिकी शाखा
टी एच बसंतकुमार (31233),	19 जून 12 से प्रभावी
ए राठी (31232),	19 जून 12 से प्रभावी
	प्रशासनिक शाखा
(सुश्री) एस के संधू (31242),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) जे के साहनी (31241),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) एन नारियाल (31237),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) के ज्योति (31238),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) ए अग्रवाल (31239),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) एम शालिनी (31240),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) डी मिश्रा (31243),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) वी एल सेन (31244),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) सी यादव (31245),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) एस शर्मा (31246),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) एस सांगवान (31247),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) स्वाति सिरोही (31249),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) डी तिवारी (31250),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) एच बर्तवाल (31251),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) मंजू कुमारी (31253),	19 जून 12 से प्रभावी
	संभारिकी शाखा
(सुश्री) एम भरन (31258),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) तान्या सिंह (31259),	19 जून 12 से प्रभावी

(सुश्री) एच के परमार (31255),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) आर चौधरी (31256),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) एस त्रिपाठी (31257),	19 जून 12 से प्रभावी
	लेखा शाखा
(सुश्री) ए बेदी (31266),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) ए डी कौर (31265),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) पी सरीन (31263),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) उर्वशी रॉय (31262),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) एस शर्मा (31261),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) के.डी.नंघनी (31260),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) पी नेगी (31264),	19 जून 12 से प्रभावी
	शिक्षा शाखा
(सुश्री) मोहना चंद्रिका (31268),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) ई. टूडू (31267),	19 जून 12 से प्रभावी
	मौसम विज्ञान शाखा
(सुश्री) के.के. देशमुख (30682),	19 जून 12 से प्रभावी
(सुश्री) वन्दना चौधरी (30683),	19 जून 12 से प्रभावी
	प्रशासन शाखा
रूपिन्दर सिंह (31502),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
पनिक वीतिक राधाकृष्णन (31497),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
केतन रमेश घोसालकर (31504),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
अनूप शंकर (31505),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
अनुपम चौहान (31503),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
सुधीर मन्हास (31501),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
जय कुमार (31500),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
विजयन प्रवीन (31499),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
श्री कृष्ण यादव (31498),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	संभारिकी शाखा
धीरेन्द्र प्रताप सिंह (31506),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
अखिल कुकेरती (31510),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
दीपक मल्होत्रा (31507),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
कुलदीप जैन (31508),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	लेखा शाखा
बिक्रम सिंह राठौर,	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	शिक्षा शाखा
सीमब अख्तर (31513),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
बिजु एम जोसेफ (31512),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी

	मौसम विज्ञान शाखा
अमित दिनेश झा (31056),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	प्रशासन शाखा
अपराजिता सिंह (31568),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
कल्पना रौतेला (31567),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
वैष्णवी तोकेकर (31579),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
सौफिया सोफत (31578),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
करिश्मा संधू (31577),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
चैताली एस दुसाने (31576),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
प्रतीक्षा साहनी (31574),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
निकिता (31573),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
एनीस जैकब (31572),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
अंजली सहारन (31571),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
लवलीन बक्शी (31570),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
डॉली शुक्ला (31575),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	संभारिकी शाखा
अंजना शुक्ला (31581),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
शैफाली आनंद (31582),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
अमिता चौहान (31587),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
आंचल कपूर (31588),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
आरती भुवनेश्वरी रंजन (31585),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
किरन नैन (31586),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
स्नेहा तलियान (31584),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	लेखा शाखा
हिना पोर (31590),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
लॉरेटा सेबेस्टियन (31591),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
गंगा निधि अग्रवाल (31589),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	शिक्षा शाखा
रेणुका कृष्णामूर्ति (31592),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
गीतांजली शर्मा (31593),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
करुणानिधि ऐश्वर्य (31594),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
उर्वशी नरवाल (31596),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
समीरा हुड्डा (31595),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	मौसम विज्ञान शाखा
प्रियंका सरकार (31059),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी

	प्रशासन शाखा
अजित सिंह (31515),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
शिशिर कुमार मिश्रा (31514),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	लेखा शाखा
कृष्ण सिंह (31516),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	प्रशासन शाखा
हाओथेनबेल वाइफेई (31553),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
विवेक कुमार झा (31554),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
अभय कुमार (31555),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	संभारिकी शाखा
राहुल वासवान (31556),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
चन्दन कुमार (31558),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
रविंद्र चंद बवाने (31557),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	मौसम विज्ञान शाखा
रंजीत सिंह (31058),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
हितेश अरोड़ा (31057),	18 दिसंबर 12 से प्रभावी
	एफ (पी) शाखा
पी मुदगल (30765)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
के महाजन (30763)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एच सिंह (30762)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
सी एस ठाकुर (30790)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एस कुलश्रेष्ठ (30789)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
ए खूंटिया (30788)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
अनूप एस एल (30787)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एस घेमुद (30732)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
जे सिंह (30730)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
पी शर्मा (30780)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
ए कुमार (30777)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एम ढिंढवाल (30776)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
जेव प्रशांत (30774)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
गगन सैनी (30752)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
आर महतो (30751)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
आर शेखर (30750)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
दीपक प्रसाद (30746)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
आर के काजला (30745)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

टी एम चेंगप्पा (30743)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एन स्याल (30742)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एच जे सिंह (30741)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
टी त्यागी (30740)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
ए खत्री (30739)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एन शर्मा (30737)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एस के पोवार (30761)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
आर महालनोबिस (30757)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
वाई आर्यन (30756)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
पी एस पठानिया (30755)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एस के चौधरी (30754)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
टी डी देसले (30766)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
ए सींह (30725)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
आर देसवाल (30722)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
वी सुदीप (30721)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
पी गोपीकृष्णन (30719)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एन कोराडिया (30717)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
ए सक्सेना (30716)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
के डी दीक्षित (30773)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

पी चौहान (30833)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एस आनंद (30743)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
पान देसाई (30735)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
(सुश्री) एस सैनी (30855)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
आर कुमार (30794)	24 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

तरुण खरे
विगं कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर -3(डी)

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 210, दिनांक 29 अगस्त 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नत करते हैं -

श्री पी केरकेटा को वरिष्ठ निजी सचिव, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 मार्च 2012। पूर्वहन। से पै बैंड 3 में ₹0 15600 - 39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे ₹0 5400 पर।

श्री एल रवि कुमार को वरिष्ठ लेखा अधिकारी - II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित)के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 14 फरवरी 2014 |पूर्वाहन। से पै बैंड 3 में रू0 15600 - 39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रू0 5400 पर ।

श्री वी कृष्णा राव को वरिष्ठ भंडार अधिकारी - 11, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित)के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2014 |पूर्वाहन। से पै बैंड 3 में रू0 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रू0 5400 पर

राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई पदों तथा तारीख से डीआरडीओ में सहर्ष (ग्रुप बी) राजपत्रित पदोन्नतियां करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पद	स्था/प्रयो0	कार्यभार ग्रहण की तारीख	पे बैंड तथा ग्रेड पे
01	श्रीमती एस उषा श्री	प्रशासनिक अधिकारी	एएसएल, हैदराबाद	26.12.2013	पीबी 2 ग्रेड पे 4600
02	श्री पी एल श्रीनिवास राव	प्रशासनिक अधिकारी	एएसएल, हैदराबाद	26.12.2013	पीबी 2 ग्रेड पे 4600
03	श्रीमती पी विजया कुमारी	प्रशासनिक अधिकारी	आरसीआई, हैदराबाद	01.01.2014	पीबी 2 ग्रेड पे 4600
04	श्री पी संजीव किरण	लेखा अधिकारी	आरसीआई, हैदराबाद	01.01.2014	पीबी 2 ग्रेड पे 4600
05	श्रीमती उषा देवी सजीव	निजी सचिव	ए डी ई, बेंगलोर	02.05.2014	पीबी 2 ग्रेड पे 4600

राजीव रंजन सिन्हा
उप निदेशक(कार्मिक)

आर्मी शाखा

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 211, दिनांक 1 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	सेवा निवृत्त की तारीख
ले. कर्नल एन्सी जोसफ	एन आर-18570 वाई	28 फरवरी 2013
ले. कर्नल शास्वती रुद्रा	एन आर-19041 वाई	31 जनवरी 2013

सुनीता कपूर
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

MINISTRY OF DEFENCE
DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION
New Delhi, the 20th September 2014

No. 203, Dated 26th August 2014—The President is pleased to make the following appointment :—

Sh. Umesh Kumar to be Addl Chief Construction Engineer, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 02 July 2014 (F/N) in the Pay Band 4 of Rs. 37400-67000 and Grade Pay Rs. 8700/-.

Sh. Sourabh Negi to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 24 April 2003 (F/N) in the Pay Scale of Rs. 6500-200-10500.

RAJEEV RANJAN SINHA
Dy Director (Pers)

No. 204, Dated 26th August 2014—The following MNS Officers have been granted Permanent Commission with effect from the date(s) mentioned against each name :—

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)
NS to NR

RANK & NAME	PERS NO.	DATE OF COMMISSION IN SSC	GRANT OF PERMANENT COMMISSION WEF
MAJ KULDEEP KAUR	NS-21389 M	03 SEP 2004	04 JAN 2014
MAJ KAPIL POOJA SUSHIL	NS-21405 Y	03 SEP 2004	04 JAN 2014
MAJ ARTI RAWAT	NS-21407 K	03 SEP 2004	04 JAN 2014
MAJ SUGRA BANO	NS-21414 A	03 SEP 2004	04 JAN 2014
MAJ NITU YADAV	NS-21415 H	03 SEP 2004	04 JAN 2014
MAJ ATHULYA DEVI	NS-21420 N	03 SEP 2004	04 JAN 2014
CAPT NITHYA S	NS-21831 M	05 JAN 2009	04 JAN 2014
CAPT NEHA	NS-21833X	05 JAN 2009	04 JAN 2014
CAPT SARABHJIT KAUR MANN	NS-21840 N	05 JAN 2009	04 JAN 2014
CAPT S AROKIAMARI	NS-21862 M	05 JAN 2009	04 JAN 2014
CAPT DEEPTHIRAJ C	NS-21870 L	16 MAR 2009	04 JAN 2014
CAPT KAVITHAI SENDURI VGS	NS-21872 W	16 MAR 2009	04 JAN 2014
CAPT SREEDEVI ACHANGHAT	NS-21876 M	16 MAR 2009	04 JAN 2014
CAPT ANISHA UM	NS-21881 X	16 MAR 2009	04 JAN 2014
CAPT POONAM GUPTA	NS-21882 A	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT SWETHA P H	NS-21883H	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT V SARAVANA KUMARI	NS-21895X	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT SHALU NAIR	NS-21900X	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT MARY SOBIA SUGANTHI A	NS-21902H	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT REVATHI K	NS-21912M	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT A SUBASHINI	NS-21913P	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT KIRTI RANI	NS-21918N	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT JAYASREE T	NS-21920L	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT SABIAESHWARI P L	NS-21921N	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT SANGEETHA V	NS-21937 Y	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT SUMAN LATA	NS-21938 F	15 JUL 2009	04 JAN 2014
CAPT CHRISTINA ELEAZAR	NS-21971 Y	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT KAVITHA G	NS-21973K	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT SARITA SAGAR	NS-21975P	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT VIJI T	NS-21980A	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT ANU R SASIDHARAN	NS-21992P	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT G NAGAMANI	NS-21996 L	14 SEP 2009	04 JAN 2014

RANK & NAME	PERS NO.	DATE OF COMMISSION IN SSC	GRANT OF PERMANENT COMMISSION WEF
CAPT N BANU PRIYA	NS-22007K	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT VANITHA C	NS-22010K	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT RAJEE GEORGE	NS-22015H	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT SMITA GUPTA	NS-22019Y	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT RENU RATHORE	NS-22045A	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT P BINAKKA	NS-22053Y	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT DALJIT KAUR	NS-22056M	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT SWARNA KUMARI OGIRALA	NS-22059A	14 SEP 2009	04 JAN 2014
CAPT BAJJAL RAJANI	NS-22069K	23 NOV 2009	04 JAN 2014

RANK & NAME	PERS NO.	DATE OF COMMISSION IN SSC	GRANT OF PERMANENT COMMISSION WEF
CAPT REKHA KUMARI	NS-21604 M	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT PRERNA SHUKLA	NS-21607 A	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT PUSHPALATA	NS-21610 A	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT ABI JOSE	NS-21614 W	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT SUDHA TAMANG	NS-21615 Y	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT RONY K T	NS-21617 K	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT JATINDER KAUR	NS-21623 X	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT DEEPA K R	NS-21624 A	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT ANITA	NS-21626 L	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT SERAH MATHAI	NS-21629 Y	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT PRIYANKA V M	NS-21631 W	22 SEP 2006	15 JUL 2011
CAPT NILIMA KHATUN	NS-21638 A	29 DEC 2006	15 JUL 2011
CAPT KALAVATI MEENA	NS-21641 A	29 DEC 2006	15 JUL 2011

**MILITARY NURSING SERVICES
(SHORT SERVICE COMMISSION)**

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 15 May 2013 (Seniority from 15 May 2011 for promotion and pay fixation being MSc (Nursing)) :—

To be Lt on Probation

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF BIRTH
LT GAYETRI SUBBA	NS-23167 W	20/8/87
LT CHITRA K B	NS-23187 K	17/9/86

SUNITA KAPOOR
Maj Gen
Addl DGMNS

AIR BRANCH

No. 205, dated 27th August 2014—The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned officers of 50 SSC(T) wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Manali Patel (31660), Akanksha Sharma (31690) wef 03 Jan 11

Fg Offr Sameer Mehra (31649), R Raakesh (31657), Amanpreet Kaur (31684), Anupama Jha (31694), Rajbir Kaur (31695) wef 03 Jan 11

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned officers of 51 SSC(T) wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Devi Prasad Hazari (32024), wef 17 Jul 11

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Ajay Maggo (31953), Swati Sachdeva (31997), wef 04 Jul 11

Fg Offr Donakonda Sravan Kumar, (32038), wef 17 Jul 11

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers of 50 SSC(T) and grant them Short Service Commission (On probation) wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Anupama Jha (31694), wef 02 Jan 12.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers of 50 SSC(T) and grant them Short Service Commission (On probation) wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Sameer Mehra (31649), R Raakesh (31657), Amanpreet Kaur (31684), Rajbir Kaur (31695), wef 02 Jul 12

TARUN KHARE

Wg Cdr

JDPO-3(D)

No. 206, dated 27th August 2014—The President is pleased to confirm the under mentioned officers who were granted Short Service Commission(on probation), wef the date stated against their names:—

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Bhatia Ishan Yogeshbhai (32199), Mohit Sharma (32200), Shivam Sinha (32201), Aman Mahajan (32202), Arjun Singh (32203), Nishant Bali (32204), Abhishek (32205), Confirmation wef 29 Dec 11.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Harjeet Singh Pundir (32206), Zulfiqar Hasan (32207), Ajay Kumar Thakur (32208), Deepak Sejwal (32209), Angelo Bosco Das (32210), Confirmation wef 29 Dec 11.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr C Bhartiya Paliwal (32211), Pankaj Rawat (32212), Vijay Kumar Ayyalasomayajula (32213), Confirmation wef 29 Dec 11.

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Meenal Pant (32219), Akanksha Pandey (32220), Abhilasha Gautam (32221), Reshuta Lakra (32222), Sheba Ghosh (32223), Sandhya Kumari (32224), Shipra Bisht (32225), Urvashi Baloria (32226), Nikita Markanday (32227), Ashima Gera (32228), Yogita Mehta (32229), Priti Yadav (32230), Chongneithem Kipgen (32231) Confirmation wef 29 Dec 11.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Sreelakshmi (32232), Isha Behal (32233), Jagriti Mukherjee (32234), Rini Tripathi (32235), Swati Negi (32236), Sonia Puri (32237), Confirmation wef 29 Dec 11.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Roshni Soin (32238), Saumya Seth (32239), Charu Singh (32240), Akhila PS (32241), Afshan Akhtar (32242), Neesha Kumari (32243), wef Confirmation wef 29 Dec 11.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Aditi Ghosh (32391), Confirmation wef 26 Apr 2012.

AERONAUTICAL ENGINEERING(ELECTROINIC) BRANCH

Fg Offr	ROHIT KUMAR	32029	AE(L)
---------	-------------	-------	-------

Confirmation wef 02 Jul 12

TARUN KHARE
Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 207, dated 27th August 2014—The President is pleased to make the following promotion: —

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg R Adm (& equivalent) to Surg V Adm (& equivalent)

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| (a) | Sushil Kumar
AVSM, NM, VSM
(MR-03681Y) (75216W) | - | 01-03-14 with notional seniority without effect on pay & pension from
01-03-14. |
|-----|---|---|--|

YASH PANDE
Maj Gen
Addl DGAFMS (HR)

No. 208, dated 28th August 2014—The President is pleased to make the following promotions: -

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

- | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|
| (a) | MD Venkatesh, VSM
(MR-04139P) | - | 01-07-13, with notional seniority without effect on pay and
pension from 01-07-13. |
| (b) | Sharat Johri, VSM
(MR-05092F) | - | 11-09-13, with notional seniority without effect on pay and
pension from 01-09-13. |
| (c) | Bipin Puri
(MR-03993P) | - | 09-09-13, with notional seniority without effect on pay and
pension from 03-09-13. |
| (d) | Pawan Kapoor, VSM
(MR-04049N) | - | 01-10-13, with notional seniority without effect on pay and
pension from 04-09-13. |
| (e) | CS Narayanan, VSM
(MR-04173P) | - | 01-12-13, with notional seniority without effect on pay and
pension from 01-12-13. |

Col (& Equivalent) to be Brig (& Equivalent)

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|---|
| (a) | R Ghuliani
(MR-04734Y) | - | 15-02-13, with notional seniority without effect on pay & pension
from 04-12-11. |
|-----|---------------------------|---|---|

- (b) S Bhatnagar (MR-04735F) - 03-09-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-04-12.
- Gp Capt (& Equivalent) to be Air Cmde (& Equivalent)
- (a) Daljit Singh (MR-04896K)(AF-17403R) - 15-07-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 02-06-13.
- Surg Cdr (& equivalent) to be Surg Capt (& equivalent)
- (a) M Ilankumaran (MR-06586X)(75548Z) - 13-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-09-12.
- (b) K Jinjil (MR-06506P)(75544R) - 21-08-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-09-12.
- (c) Manu Venkatesan (MR-06507X)(75543N) - 16-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-09-12.
- (d) S Dutta (MR-06601F)(75560A) - 22-08-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-13.
- (e) PK Srivastava, VSM (MR-07792N)(75606F) - 05-06-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-05-13.
- (f) Anil Pillai C (MR-06606A)(75561B) - 29-06-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 13-05-13.
- (g) Rohit Sharma (MR-06550Y)(75555R) - 01-07-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 22-06-13.
- (h) J Sridhar (MR-06553M)(75557W) - 01-07-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 27-06-13.
- (i) AK Pandey (MR-06561L)(75578T) - 01-07-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-07-13.
- (j) S Ray (MR-06806W)(75590W) - 01-11-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-10-13.
- Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)
- (a) Sushil Kumar (MR-07148F) - 02.09.12 with notional seniority without effect on pay & pension from 02-01-12.
- (b) M S Roy (MR-06285N) - 08-08-12 with notional seniority without effect on pay & pension from 03-01-12.
- (c) H Sethi (MR-06323Y) - 24-07-12 with notional seniority without effect on pay & pension from 03-02-12.
- (a) PB Mukherjee (MR-06136A) - 02-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-10.
- (b) N Mukherjee (MR-06152X) - 03-05-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-04-11.
- (c) Salil Garg (MR-06268N) - 01-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-11.
- (d) K Mohanlal (MR-06726Y) - 27-09-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-01-12.
- (e) PK Dhagat (MR-06355F) - 02-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-05-12.
- (f) AK Singh (MR-06386F) - 01-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-07-12.

(g)	R Ganesh (MR-06036P)	-	17-08-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-02-13.
(h)	NS Jarial (MR-06162F)	-	22-03-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-02-13.
(i)	VM Chandran (MR-06235H)	-	04-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-02-13.
(j)	AK Mitra (MR-06277P)	-	24-03-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 19-02-13.
(k)	Narinder Kumar (MR-06374M)	-	08-08-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 28-02-13.

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

AIR FORCE

No. 209, dated 29th August.2014—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

INDIAN AIR FORCE

WG CDR TO BE SUBSTANTIVE GP CAPT(TS)

F(P) BRANCH

S SRIVASTAVA (18569),	w.e.f 06-DEC-12
VA KULKARNI (18589),	w.e.f 06-DEC-12
SK DWIVEDI (18693),	w.e.f 06-DEC-12

LGS BRANCH

S GUPTA (18595),	w.e.f 06-DEC-12
------------------	-----------------

ADM BRANCH

RK ARORA (18626),	w.e.f 06-DEC-12
R CHANDRA (18612),	w.e.f 06-DEC-12
RK SAINI (18606),	w.e.f 06-DEC-12
TP WALIA (18634),	w.e.f 06-DEC-12
JPS JASAL (18625),	w.e.f 06-DEC-12
A SINGHA (18615),	w.e.f 06-DEC-12
PK SHARMA (18617),	w.e.f 06-DEC-12
A GOEL (18605),	w.e.f 06-DEC-12
SS THAKUR (18628),	w.e.f 06-DEC-12
AS KARKARE (18607),	w.e.f 06-DEC-12
VS RADHAKRISHNAN (18621),	w.e.f 06-DEC-12
B NAG (18629),	w.e.f 06-DEC-12
AP INGLEBY (18627),	w.e.f 06-DEC-12

LGS BRANCH

IV KRISHNA RAO (18645),	w.e.f 06-DEC-12
A SRIVASTAVA (18651),	w.e.f 06-DEC-12
A RAWAT(18650),	w.e.f 06-DEC-12
RK SINGH (18639),	w.e.f 06-DEC-12

T SRINIVAS RAO(18653),		w.e.f 06-DEC-12
	ACCTS BRANCH	
HV TIWARI (18658),		w.e.f 06-DEC-12
AR FRANKLIN (18662),		w.e.f 06-DEC-12
KK MISHRA(18664),		w.e.f 06-DEC-12
	ADM BRANCH	
A PANDEY (18620),	w.e.f 16-DEC-12	
	(WITH NOTIONAL SENIORITY W.E.F 06 Dec 12)	
	AE(M) BRANCH	
P MULLAGIRI (19416),		w.e.f 06-MAR-13
R SANGAL (19415),		w.e.f 06-MAR-13
DS PAI(19414),		w.e.f 06-MAR-13
PK VATSA (19422),		w.e.f 06-MAR-13
S BOSE (19408),		w.e.f 06-MAR-13
A KUMAR (19412),		w.e.f 06-MAR-13
T MOHANRAJ (19099),		w.e.f 06-MAR-13
V MITTAL (19420),		w.e.f 06-MAR-13
G VARGHESE (19419),		w.e.f 06-MAR-13
R BAHADUR (19423),		w.e.f 06-MAR-13
	AE(L) BRANCH	
HK SRIVASTAVA (19591),		w.e.f 06-MAR-13
K ASAITHAMBI (19039),		w.e.f 06-MAR-13
KS BAINCE (19428),		w.e.f 06-MAR-13
AD SAINI (19425),		w.e.f 06-MAR-13
	SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR	
	PERMANENT COMMISSION	
	ADM BRANCH	
PRAMOD KUMAR (25369),	WEF 19 DEC 2011	
	LGS BRANCH	
RAO SUDARSHAN KB (25383),	PRAVEEN KUMAR SINGH (25390),	
RAMAKANT SHARMA (25380),		
	WEF 19 DEC 2011	
	ADM BRANCH	
MANPREET SINGH (25671),	w.e.f. 19-JUN-12	
	F(N) BRANCH	
NAIR SREEHARI BAYAKUMARAN SYLAJAKUMARI (25356),	w.e.f 19-DEC-2011	
	ADM BRANCH	
VADAKKEMADHOM VENU (25359),	w.e.f 19-DEC-2011	
	SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR	
	ADM BRANCH	
MANIK BHARDWAJ(25898),	w.e.f 18-DEC-12	
FERNANDO CC DACOSTA(25889),	w.e.f 18-DEC-12	
ABHISHEK SINGH(25892),	w.e.f 18-DEC-12	
TIDHI SUNEEL VASUDEV(25900),	w.e.f 18-DEC-12	
VIROHIT KUMAR TOMAR(25897),	w.e.f 18-DEC-12	
PANKAJ KUMAR JHA(25895),	w.e.f 18-DEC-12	
DHANESH KUMAR SINGH(25896),	w.e.f 18-DEC-12	
AJAY PAL SINGH(25899),	w.e.f 18-DEC-12	
SURESH KUMAR(25891),	w.e.f 18-DEC-12	
SANDEEP KUMAR SHARMA(25894),	w.e.f 18-DEC-12	
MAMIDI RAMBABU(25890),	w.e.f 18-DEC-12	
	LGS BRANCH	
ABHISHEK TRIPATHI(25903)	w.e.f 18-DEC-12	
SHALENDRA KUMAR JAIN(25917)	w.e.f 18-DEC-12	
RISHI DEV YADAV(25911)	w.e.f 18-DEC-12	
KAVIRAJ CHAUHAN(25906)	w.e.f 18-DEC-12	
TIRATH SINGH(25914)	w.e.f 18-DEC-12	
RAHUL JAIN(25915)	w.e.f 18-DEC-12	
MORAM ANANDA RAO(25901)	w.e.f 18-DEC-12	

TOMY VARGHESE(25908)	w.e.f 18-DEC-12
RAHUL SHARMA(25918)	w.e.f 18-DEC-12
KG MANOJ(25907)	w.e.f 18-DEC-12
KM RAKESH(25910)	w.e.f 18-DEC-12
RS KUMAR(25912)	w.e.f 18-DEC-12
ANIL KARUNAKARAN NAIR(25902)	w.e.f 18-DEC-12
NARENDER SINGH(25909)	w.e.f 18-DEC-12
SUNIL MATHEWS(25916)	w.e.f 18-DEC-12
SUBBARAMAIYA SRINIDHI(25913)	w.e.f 18-DEC-12

AE(M) BRANCH

RAHUL SYAMAN(26410),	w.e.f 07-JAN-13
KC SUNISH(26413),	w.e.f 07-JAN-13
DANDIA SARFROZ UDDIN(26415),	w.e.f 07-JAN-13
NAVEEN SHARMA(26416),	w.e.f 07-JAN-13
NISHANT BAGHA(26417),	w.e.f 07-JAN-13
ARAVINDA R KOLEKAR(26418),	w.e.f 07-JAN-13
BIMALJIT SINGH SOODAN(26419),	w.e.f 07-JAN-13
AJAY GOPINATHAN NAIR(26420),	w.e.f 07-JAN-13
TR PADMARAJ(26421),	w.e.f 07-JAN-13
DIGVIJAY SINGH(26422),	w.e.f 07-JAN-13
MANAS CHOWDHURY(26423),	w.e.f 07-JAN-13
SUDHIR SHARMA(26424),	w.e.f 07-JAN-13
SUBHRO GHOSAL(26454),	w.e.f 07-JAN-13
BASAVARAJ C PATIL(26507),	w.e.f 07-JAN-13
HARISH G JOSHI(26406),	w.e.f 07-JAN-13
RAHUL YADAV(26407),	w.e.f 07-JAN-13
SUMIT KUMAR VASHISHTHA(26408),	w.e.f 07-JAN-13
THENDUP NAMGYAL(26402),	w.e.f 07-JAN-13
KULWANT SINGH(26403),	w.e.f 07-JAN-13
R ANANDKUMAR(26404),	w.e.f 07-JAN-13
SATUKKUTTY PADMANABAN PADMARAJAN(26405),	w.e.f 07-JAN-13
GAUTAM KAISTHA(26400),	w.e.f 07-JAN-13
R KARTHIKEYAN (26399),	w.e.f 07-JAN-13
GI GIRIJESH (26398),	w.e.f 07-JAN-13
J JAYARAJ (26411),	w.e.f 07-JAN-13

AE(L) BRANCH

AMIT SHARMA (26439),	w.e.f 07-JAN-13
RAJEEV SINGH(26438),	w.e.f 07-JAN-13
RAJIV KUMAR(26510),	w.e.f 07-JAN-13
NITIN KUMAR GUPTA(26509),	w.e.f 07-JAN-13
L ANTHONY MADAN(26442),	w.e.f 07-JAN-13
SUBI CHANDRAN(26443),	w.e.f 07-JAN-13
SN SUDHEENDRA(26444),	w.e.f 07-JAN-13
AMIT RESUTRA(26425),	w.e.f 07-JAN-13
NEERAJ AGGARWAL(26426),	w.e.f 07-JAN-13
SARVESH RAI(26427),	w.e.f 07-JAN-13
S YUVARAJ(26429),	w.e.f 07-JAN-13
ASHISH KUMAR KAUSHAL(26431),	w.e.f 07-JAN-13
ADITYENDRA TIWARI(26446),	w.e.f 07-JAN-13
PARAG JAYANT BADKAS(26447),	w.e.f 07-JAN-13

ABHIJEET KAUSHIK(26448),	w.e.f 07-JAN-13
MUNISH MEHANDRU(26449),	w.e.f 07-JAN-13
SANDEEP SUBHASH(26450),	w.e.f 07-JAN-13
SUMIT YADAV(26452),	w.e.f 07-JAN-13
SANJAY KUMAR SAHU (26453),	w.e.f 07-JAN-13
ANAND PRASAD(26455),	w.e.f 07-JAN-13
ARIFUR RAHMAN KHAN(26456),	w.e.f 07-JAN-13
ROHIT CHANDRA(26508),	w.e.f 07-JAN-13

DEEPAK MISHRA (26432),		w.e.f 07-JAN-13
S PRASHANTH AMITHANAND(26434),		w.e.f 07-JAN-13
S SIVAKUMAR(26428),		w.e.f 07-JAN-13
DEEPESH SHAHJEE(26433),		w.e.f 07-JAN-13
VM DAMODHARAN(26441),		w.e.f 07-JAN-13
D ROSE CHANDRAN(26445),		w.e.f 07-JAN-13
RV PALDHIKAR(26451),		w.e.f 07-JAN-13
THOMSON GEORGE(26436),		w.e.f 07-JAN-13
L BHOGEN Singh(26435),		w.e.f 07-JAN-13
NARESH KUMAR TYAGI (26437),		w.e.f 07-JAN-13
	F(P) BRANCH	
SUJATA DWIVEDI (25919),		w.e.f 18-DEC-12
	AE(L)BRANCH	
HARI CHAND MANN (25814),		w.e.f 18-DEC-12
N NAGARAJAN (25815),		w.e.f 18-DEC-12
	ADM BRANCH	
MAHIMA SHARMA (25926),		w.e.f 18-DEC-12
GARIMA SHARMA (25923),		w.e.f 18-DEC-12
ROHINA SAXENA (25925),		w.e.f 18-DEC-12
ANISHA HATWAL (25921),		w.e.f 18-DEC-12
SUJATA TIWARI (25928),		w.e.f 18-DEC-12
MANJU BHASKAR (25922),		w.e.f 18-DEC-12
REENA KUMARIA (925924),		w.e.f 18-DEC-12
	LGS BRANCH	
SEEMA KANOUIA (25931),		w.e.f 18-DEC-12
KULJINDER HUNDAL (925930),		w.e.f 18-DEC-12
JASHASWI RATH (25932),		w.e.f 18-DEC-12
RICHA MARKANDEYA (25929),		w.e.f 18-DEC-12
	F(N) BRANCH	
AV REDDY (25881),		w.e.f 18-DEC-12
WEBSTER SILVAN VAS (25879),		w.e.f 18-DEC-12
RK REDDY (25880),		w.e.f 18-DEC-12
YA KUMAR (25888),		w.e.f 18-DEC-12
KULDEEP SINGH ASWAL (25883),		w.e.f 18-DEC-12
APARAJIT BISHT (25878),		w.e.f 18-DEC-12
JERRY MATHEW (25884),		w.e.f 18-DEC-12
RAHUL CHAND (25882),		w.e.f 18-DEC-12
ANKUSH SAHAY (25887),		w.e.f 18-DEC-12
	ADM BRANCH	
VS SHIVTARE (25885),		w.e.f 18-DEC-12
	F(P) BRANCH	
SAMEER MEHRA (25855),		w.e.f 18-DEC-12
PRASHANT GROVER (25820),		w.e.f 18-DEC-12
SACHIN ANAND GADRE (25846),		w.e.f 18-DEC-12
NARENDER SINGH PANWAR (25833),		w.e.f 18-DEC-12
ELVIS CLINTON RODRIGUES (25823),		w.e.f 18-DEC-12
P SIVARAM (25840),		w.e.f 18-DEC-12
S GUNASEKARAN (25830),		w.e.f 18-DEC-12
K SOMNATHAN (25874),		w.e.f 18-DEC-12
M PARGUNAN (25857),		w.e.f 18-DEC-12
ANAND ARUN NISAL (25862),		w.e.f 18-DEC-12
SACHIN GUPTA (25854),		w.e.f 18-DEC-12
SAI PRASAD DORA (25849),		w.e.f 18-DEC-12
VIKRANT YADAV (25844),		w.e.f 18-DEC-12
RITAM KUMAR (25837),		w.e.f 18-DEC-12
SHIVANG KUMAR (25877),		w.e.f 18-DEC-12
VINOY KUTTAPPAN (25875),		w.e.f 18-DEC-12
GAUTAM NARAIN (25873),		w.e.f 18-DEC-12
TARUN KUMAR CHAUDHRI (25871),		w.e.f 18-DEC-12

ZUBER AY SHAIKH (25866),		w.e.f 18-DEC-12
ASHISH B DHANAKE (25863),		w.e.f 18-DEC-12
DHARMARAJ HARIHARAN (25856),		w.e.f 18-DEC-12
DEEPESH KUMAR (25853),		w.e.f 18-DEC-12
JEYJO POTHEEN (25851),		w.e.f 18-DEC-12
RAHUL SHUKLA (25845),		w.e.f 18-DEC-12
PREM ANAND (25842),		w.e.f 18-DEC-12
UJJWAL GOVIL (25841),		w.e.f 18-DEC-12
GEORGE JOSEPH (25835),		w.e.f 18-DEC-12
ARNAB NATH (25834),		w.e.f 18-DEC-12
TARUN GUPTA (25824),		w.e.f 18-DEC-12
HARPREET SINGH LUTHRA (25821),		w.e.f 18-DEC-12
ANURAG KHURANA (25819),		w.e.f 18-DEC-12
ARJUNA VINOBA (25876),		w.e.f 18-DEC-12
VINEET KUMAR JOSHI (25872),		w.e.f 18-DEC-12
SUNIL KUMAR DESHWAL (25870),		w.e.f 18-DEC-12
AMIT SARMAI (25869),		w.e.f 18-DEC-12
SAMEER SHARMA (25864),		w.e.f 18-DEC-12
PRASHANT SITARAM CHAVAN (25861),		w.e.f 18-DEC-12
SANDEEP KUMAR AHUJA (25852),		w.e.f 18-DEC-12
HUVEY UPADHYAYA (25850),		w.e.f 18-DEC-12
TUSHAR SHRIDHAR VAIDYA (25839),		w.e.f 18-DEC-12
ARVIND KUMAR (25836),		w.e.f 18-DEC-12
DEBARSHI BAGCHI (25832),		w.e.f 18-DEC-12
KARAM HEROJIT SINGH (25826),		w.e.f 18-DEC-12
GIRISH DANTALE (25822),		w.e.f 18-DEC-12
	ADM BRANCH	
RAKESH KUMAR (25847),		w.e.f 18-DEC-12
	F(P) BRANCH	
SUBHASH SINGH RAO (25827),		w.e.f. 03-JAN-13 (WITH NOTIONAL SENIORITY w.e.f. 18-DEC-12)
	SHORT SERVICE COMMISSION	
	AE(L)BRANCH	
DOLLY DEVGON (25808),		w.e.f. 26-JUL-12
	FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR	
	AE(M)BRANCH	
SANDEEP RANA (29603),		w.e.f 27-JUN-12
	AE(L) BRANCH	
SRIRAM NATARAJAN (29630),		w.e.f 27-JUN-12
JAYAKRISHNAN THEKKUMPATT (29627),		w.e.f 27-JUN-12
CHETAN GOSAIN (29620),		w.e.f 27-JUN-12
SAKET SEHGAL (29617),		w.e.f 27-JUN-12
SHOURYA BAJPAI (29616),		w.e.f 27-JUN-12
S SHARMA (29648),		w.e.f 27-JUN-12
SANDEEP SHARMA (29615),		w.e.f 27-JUN-12
KABI PRASAD DASH (29614),		w.e.f 27-JUN-12
PANKAJ NARAYAN (29608),		w.e.f 27-JUN-12
ASHISH VASHISHT (29604),		w.e.f 27-JUN-12
A LOUIS (29672),		w.e.f 27-JUN-12
CHERAMANNAN C (29650),		w.e.f 27-JUN-12
TS BABA (29649),		w.e.f 27-JUN-12
AMIT KUMAR LAWANIA (29640),		w.e.f 27-JUN-12
PREMVIR SINGH (29639),		w.e.f 27-JUN-12
PRITPAL SINGH (29644),		w.e.f 27-JUN-12

APOORVA GAURAV (29643),	w.e.f 27-JUN-12
SUNNY DHANRAJ SHARMA (29642),	w.e.f 27-JUN-12
ANSHUMAN HOTA (29641),	w.e.f 27-JUN-12
FAHAD KAMAL (29638),	w.e.f 27-JUN-12
SUMEET KUMAR (29636),	w.e.f 27-JUN-12
KISHAN CHANDRA TRIPATHI (29633),	w.e.f 27-JUN-12
ANKIT DIXIT (29647),	w.e.f 27-JUN-12
TANISH ARORA (29646),	w.e.f 27-JUN-12
RAHUL TRIPATHI (29629),	w.e.f 27-JUN-12
VIJIT KUMAR (29626),	w.e.f 27-JUN-12
FIDAULLAH ZAFFARI (29625),	w.e.f 27-JUN-12
SHUBHANSHU SRIVASTAVA (29624),	w.e.f 27-JUN-12
ANIL SHARMA (29623),	w.e.f 27-JUN-12
VIPUL UPADHYAY (29621),	w.e.f 27-JUN-12
NAVNEET GAUR (29612),	w.e.f 27-JUN-12
SHALABH SHARMA (29611),	w.e.f 27-JUN-12
V R K MUPPA (29609),	w.e.f 27-JUN-12
ANKIT SHARMA (29619),	w.e.f 27-JUN-12
JAI BIHARI MATHUR (29632),	w.e.f 27-JUN-12
DEEPAK SHARMA (29631),	w.e.f 27-JUN-12
F(N) BRANCH	
A SHARMA(29050),	w.e.f 17-JUN-12
ABHISHEK PANDEY (29004)	w.e.f 17-JUN-12
S B CHANDPURKAR(29019),	w.e.f 17-JUN-12
M M SINGH (29044),	w.e.f 17-JUN-12
RJ RANE(29068),	w.e.f 17-JUN-12
AJ TAWDE(29016),	w.e.f 17-JUN-12
P NAYYAR(28997),	w.e.f 17-JUN-12
ADM BRANCH	
B SRINIVASA RAO(29072),	w.e.f 17-JUN-12
K SRINIVASA RAO(29084),	w.e.f 17-JUN-12
R RANJITH(29074),	w.e.f 17-JUN-12
RAJIV CHAUHAN(29086),	w.e.f 17-JUN-12
ROHAN HEREDIA(29073),	w.e.f 17-JUN-12
G SRINIVAS REDDY(29079),	w.e.f 17-JUN-12
AKSHAY KUMAR (29080),	w.e.f 17-JUN-12
GS GANDYOK (29082),	w.e.f 17-JUN-12
VISHAL SINGH JASROTIA (29081)	w.e.f 17-JUN-12
LGS BRANCH	
R BASKARAN (29089),	w.e.f 17-JUN-12
R SATHISH NAIR(29088),	w.e.f 17-JUN-12
ACCTS BRANCH	
GD SHARMA(29091),	w.e.f 17-JUN-12
V SONI(29093),	w.e.f 17-JUN-12
EDN BRANCH	
J SREEPRAKASH(29097),	w.e.f 17-JUN-12
M SUBBA RAO(29094),	w.e.f 17-JUN-12
US SAHU (29095),	w.e.f 17-JUN-12
M KUMAR (29096),	w.e.f 17-JUN-12
F(P)BRANCH	
DHARMENDRA SUNDA(29061),	w.e.f 17-JUN-12
SS DAGUR(29046),	w.e.f 17-JUN-12
BS RAO(29060),	w.e.f 17-JUN-12
ANAND KUMAR YADAV(29059),	w.e.f 17-JUN-12
UTKARSH SINGH(29015),	w.e.f 17-JUN-12

S SHUKLA(29014),	w.e.f 17-JUN-12
G MITTAL(29005),	w.e.f 17-JUN-12
VISHAK NAIR(28993),	w.e.f 17-JUN-12
B DASH(29070),	w.e.f 17-JUN-12
RD MANGRULKAR(29058),	w.e.f 17-JUN-12
S KULKARNI(29055),	w.e.f 17-JUN-12
N MEHROTRA(29022),	w.e.f 17-JUN-12
AJAY DASARATHI(29003),	w.e.f 17-JUN-12
R HANS(29002),	w.e.f 17-JUN-12
A TEWARI(29001),	w.e.f 17-JUN-12
R CHOUDHARY(29009),	w.e.f 17-JUN-12
PRAVEEN(29007),	w.e.f 17-JUN-12
OMAR BROWNE(29006),	w.e.f 17-JUN-12
A SAXENA(29020),	w.e.f 17-JUN-12
B MALHOTRA(29042),	w.e.f 17-JUN-12
V MISHRA(29030),	w.e.f 17-JUN-12
NK PANDEY(29025),	w.e.f 17-JUN-12
G SIKRI(29024),	w.e.f 17-JUN-12
RAHUL RAWAT(29023),	w.e.f 17-JUN-12
MK PANDEY(29027),	w.e.f 17-JUN-12
PK KADYAN(29026),	w.e.f 17-JUN-12
RR VIVEK(29065),	w.e.f 17-JUN-12
N S BAHUA(29021),	w.e.f 17-JUN-12
R RANA(29013),	w.e.f 17-JUN-12
M SHARMA(29012),	w.e.f 17-JUN-12
A HYANKI(29000),	w.e.f 17-JUN-12
A GHOSH(28999),	w.e.f 17-JUN-12
GAURAV SINGH(28996),	w.e.f 17-JUN-12
T DAYAL SHARMA(29051),	w.e.f 17-JUN-12
RANVIR KUMAR THAKUR (29064),	w.e.f 17-JUN-12
SHIVAM P K WASON(29063),	w.e.f 17-JUN-12
A AHLAWAT(28994),	w.e.f 17-JUN-12
HARIOM DUBEY(29029),	w.e.f 17-JUN-12
V JAISWAL(29028),	w.e.f 17-JUN-12
A AGRAWAL(29062),	w.e.f 17-JUN-12
RK SINHA(29054),	w.e.f 17-JUN-12
HD GALA(29069),	w.e.f 17-JUN-12
ROHIT RANJAN(29066),	w.e.f 17-JUN-12
KP SINGH(29017),	w.e.f 17-JUN-12
SACHIN KUMAR(29032),	w.e.f 17-JUN-12
H PANDE(29041),	w.e.f 17-JUN-12
AK BHARMORIA(29039),	w.e.f 17-JUN-12
G SHARMA(29038),	w.e.f 17-JUN-12
G R KHARCHE(29037),	w.e.f 17-JUN-12
T OJHA(29043),	w.e.f 17-JUN-12
N TARE(29045),	w.e.f 17-JUN-12
CHRISTLE GEORGE VARGHESE(29011),	w.e.f 17-JUN-12
PK THAKUR(29010),	w.e.f 17-JUN-12
S CHATURVEDI(29049),	w.e.f 17-JUN-12
ABHISHEK(29048),	w.e.f 17-JUN-12
S THAKUR(29035),	w.e.f 17-JUN-12
K M A AYUSH(29034),	w.e.f 17-JUN-12
JS SANDHU (29033),	w.e.f 17-JUN-12
S SOOD (29036),	w.e.f 17-JUN-12
S RAI (29052),	w.e.f 17-JUN-12

C PRAKASH(28998),	F(N)BRANCH	w.e.f 17-JUN-12
DASGUPTA ANINDITA (29110),	ADM BRANCH	w.e.f 17-JUN-12
K MADHAN KUMAR(29155),	AE(M)BRANCH	w.e.f 03-JUL-12
RR PALNATI (29156),		w.e.f 03-JUL-12
RK THAKUR(29598),		w.e.f 29-JUN-11
DK SAINI(29600),	AE(L)BRANCH	w.e.f 29-JUN-11
KS MEHLAWAT (29599)		w.e.f 29-JUN-11
(MS)POOJA KHANNA (29113),	ADM BRANCH	w.e.f 17-JUN-12
(MS)N BADHANI (29118),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)LALITA REKHARI (29114),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)G GREESHMA (29103),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)SHALINI (29107),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)KAVITA DAHIYA (29108),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)DIVYA BANSAL (29109),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)ROHINI SINGH (29115),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)POOJA SINGH (29116),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)PRIYANKA PANT (29105),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)N SHARMA (29104),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)ABHA TANDON (29111),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)SIDDHI TAMRAKAR (29120),	LGS BRANCH	w.e.f 17-JUN-12
(MS)RUPENDER KAUR (29124),	ACCTS BRANCH	w.e.f 17-JUN-12
(MS)P GAUR (29121),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)RACHNA SHAH (29123),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)JISHA K (29122),		w.e.f 17-JUN-12
(MS)PALLAVI PONNAPPA (29125),	EDN BRANCH	w.e.f 17-JUN-12
(MS)EKTA BOTHRA (28639),	MET BRANCH	w.e.f 17-JUN-12
(MS)POONAM GHILDIYAL (28638),		w.e.f 17-JUN-12
FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT PERMANENT COMMISSION		
KORDE VIDYASAGAR LAHANU (31366),	AE(M) BRANCH	w.e.f 05-JUL-2012
R SHARMA (31391), A KANDASAMY (31399),	AE(L) BRANCH	w.e.f 05-JUL-2012
SAIRAM S (31271), AKSHAY SANTARAM JOSHI (31280),	AE(M) BRANCH	w.e.f 30-JUN-2011
JASVINDER SINGH (31312),	AE(L) BRANCH	w.e.f 30-JUN-2011
VAIBHAV KAPOOR (31478),	F(P) BRANCH	w.e.f 18-DEC-12
NANDEEP CHOUTHIPARAMBIL SHYJAN (31430),		w.e.f 18-DEC-12
VINUDAS K (31474),		w.e.f 18-DEC-12
RAJAT SINGH (31471),		w.e.f 18-DEC-12
RAHUL SRIVASTAVA (31465),		w.e.f 18-DEC-12
AVINASH PRATAP (31462),		w.e.f 18-DEC-12
KARAN TYAGI (31455),		w.e.f 18-DEC-12
AMANDEEP SINGH MALHI (31446),		w.e.f 18-DEC-12
CHANDAN SINGH RATHORE (31489),		w.e.f 18-DEC-12
HIMANSHU SHARMA (31487),		w.e.f 18-DEC-12
SURAJ KULKARNI (31467),		w.e.f 18-DEC-12

ATUL KUMAR SHARMA (31494),	w.e.f 18-DEC-12
VIBIN KUMAR NAIR (31490),	w.e.f 18-DEC-12
ADARSH THAKUR (31486),	w.e.f 18-DEC-12
SHOBHIT MISHRA (31485),	w.e.f 18-DEC-12
BINOY THINGBAIJAM (31484),	w.e.f 18-DEC-12
VINEET SINGH (31476),	w.e.f 18-DEC-12
LALRINSANGA (31473),	w.e.f 18-DEC-12
ISHAN MISHRA (31469),	w.e.f 18-DEC-12
ABHISHEK KANYAL (31466),	w.e.f 18-DEC-12
VISHNU RAJENDRAN (31463),	w.e.f 18-DEC-12
NIRANJAN BN (31460),	w.e.f 18-DEC-12
SUMEDH ANAJT KUMAR DETHE (31458),	w.e.f 18-DEC-12
VIVEKANAND A NALANGE (31457),	w.e.f 18-DEC-12
SHASHI PRAKASH SINGH (31452),	w.e.f 18-DEC-12
VIKAS MADAN (31451),	w.e.f 18-DEC-12
ANIMESH KUMAR LAMBA (31450),	w.e.f 18-DEC-12
SIDDDHARTH RAWAT (31447),	w.e.f 18-DEC-12
APURBA RANA (31445),	w.e.f 18-DEC-12
PRINCE MISHRA (31444),	w.e.f 18-DEC-12
MANIK BHALLA (31443),	w.e.f 18-DEC-12
MANMEET SINGH NARAND (31442),	w.e.f 18-DEC-12
SHASHANK BHARGAVA (31440),	w.e.f 18-DEC-12
ANKIT BHALLA (31437),	w.e.f 18-DEC-12
VIKAS SHAH (31436),	w.e.f 18-DEC-12
RAJKUMAR JOHN HARVARD (31488),	w.e.f 18-DEC-12
PRAKASH BANDU SHINDE (31461),	w.e.f 18-DEC-12
GAUTAM KUMAR (31483),	w.e.f 18-DEC-12
MAYANK KUSHWAHA (31472),	w.e.f 18-DEC-12
UMESH KUMAR (31438),	w.e.f 18-DEC-12
ANSHU SRIVASTAVA (31496),	w.e.f 18-DEC-12
GAURAV RAJPUT (31492),	w.e.f 18-DEC-12
MANISH SHARMA (31464),	w.e.f 18-DEC-12
BALLANA RANJITH KUMAR (31482),	w.e.f 18-DEC-12
VIJAYKUMAR D ZENDE (31454),	w.e.f 18-DEC-12
VARDHANESHEEL CHATURVEDI (31435),	w.e.f 18-DEC-12
PRAVEEN TIWARI (31431),	w.e.f 18-DEC-12
PRAVEEN SHUKLA (31475),	w.e.f 18-DEC-12
TANYA SRINIVAS (31565),	w.e.f 18-DEC-12
SAMVEDITA SINGH (31562),	w.e.f 18-DEC-12
SHALLY AGGARWAL (31561),	w.e.f 18-DEC-12
YOGITA SINGH (31559),	w.e.f 18-DEC-12
ANJU GAHLOT (31564),	W.e.f 18-DEC-12
PREETH MARIA DSOUZA (31560),	w.e.f 18-DEC-12
KAVITA ANAND PRABHU (31566),	w.e.f 18-DEC-12
GL VINEETH (31529),	w.e.f 18-DEC-12
CHETAN P RAUT (31539),	w.e.f 18-DEC-12
KAPIL CHOWDHRY (31548),	w.e.f 18-DEC-12
SAURABH JHA (31544),	w.e.f 18-DEC-12
ABY JOSEPH (31543),	w.e.f 18-DEC-12
ANUPAM ARORA (31535),	w.e.f 18-DEC-12
HITESH MURLIDHAR (31517),	w.e.f 18-DEC-12
JAINENDRA DUTTA (31534),	w.e.f 18-DEC-12
NAGARJAN (31551),	w.e.f 18-DEC-12
MANOJ MANUVEL (31552),	w.e.f 18-DEC-12

AKSHAY AGARWAL (31541),	w.e.f 18-DEC-12
ALLEN GEORGE P (31525),	w.e.f 18-DEC-12
ASHU SAXENA (31536),	w.e.f 18-DEC-12
ASHISH MATHUR (31524),	w.e.f 18-DEC-12
PRASHANT SINGH (31523),	w.e.f 18-DEC-12
HARSHAD BHAGWANT MORE (31521),	w.e.f 18-DEC-12
JUDE PEREIRA (31518),	w.e.f 18-DEC-12
SUMEET SHARMA (31522),	w.e.f 18-DEC-12
CHILAKA KALYAN (31540),	w.e.f 18-DEC-12
PREET TOMAR (31542),	w.e.f 18-DEC-12
SUHAS S NAIR (31546),	w.e.f 18-DEC-12
HARSHA (31547),	w.e.f 18-DEC-12
VARUN PANSE (31549),	w.e.f 18-DEC-12
SUJAY BHAJANEHATTY (31526),	w.e.f 18-DEC-12
ASHUTOSH KASHIKAR P (31527),	w.e.f 18-DEC-12
SIBI CHAKKRAVARTHY ELANGO VAN (31528),	w.e.f 18-DEC-12
AJEET KUMAR (31530),	w.e.f 18-DEC-12
ATUL BHASKAR MISHRA (31531),	w.e.f 18-DEC-12
JAZMEET SUBHLOK (31519),	w.e.f 18-DEC-12
SHOUVIK KUMAR GHOSH (31533),	w.e.f 18-DEC-12
ROHIT S SAMBYAL (31537),	w.e.f 18-DEC-12
SHANKAR SINGH BISHT (31538),	w.e.f 18-DEC-12
VARUN BHUTANI (31520)	w.e.f 18-DEC-12

F(N) BRANCH

ABHINAV GARGMUKH (31439),	w.e.f 18-DEC-12
J SATHISH KUMAR (31434),	w.e.f 18-DEC-12
TANUSHREE BADAL (31563),	w.e.f 18-DEC-12
SATISH KUMAR GUPTA (31532),	w.e.f 18-DEC-12
VISHAL VIKRAM SINGH (31545),	w.e.f 18-DEC-12
ANANT SRIVASTAVA (31495),	w.e.f 18-DEC-12
KUSHAL V SHET TAR (31491),	w.e.f 18-DEC-12
MANAS MUKUL THATTE (31441),	w.e.f 18-DEC-12
VISHAL H JOSHI (31449),	w.e.f 18-DEC-12
VINIGALLA RAVI KUMAR (31453),	w.e.f 18-DEC-12
RAVEESH CHAUDHARY (31456),	w.e.f 18-DEC-12
MANISH KUMAR THAKUR (31468),	w.e.f 18-DEC-12
ABHIMANYU NANDAL (31477),	w.e.f 18-DEC-12
KUMAL BARPATTE (31493),	w.e.f 18-DEC-12
SHYAM SUNDER BAJPAI (31481),	w.e.f 18-DEC-12
PULKIT KUMAR SHARMA (31550),	w.e.f 18-DEC-12

ADM BRANCH

A KULSHRESHTHA (31189),	w.e.f 19-JUN-12
RAHUL JHA (31191),	w.e.f 19-JUN-12
D KUMAR (31188),	w.e.f 19-JUN-12
SK SONI (31187),	w.e.f 19-JUN-12
PS BAMRAH (31182),	w.e.f 19-JUN-12
V GAUR (31185),	w.e.f 19-JUN-12
A SHARMA (31184),	w.e.f 19-JUN-12
P PANDEY (31183),	w.e.f 19-JUN-12
V PATNAIK (31186),	w.e.f 19-JUN-12

	LGS BRANCH	
A KHAN (31200),		w.e.f 19-JUN-12
R SHARMA (31201),		w.e.f 19-JUN-12
SK SINGH (31197),		w.e.f 19-JUN-12
SUNNY NAIN (31193),		w.e.f 19-JUN-12
KS TEOTIA (31194),		w.e.f 19-JUN-12
S SINGH (31195),		w.e.f 19-JUN-12
AK PANDEY (31192),		w.e.f 19-JUN-12
S JACOB (31198),		w.e.f 19-JUN-12
GR HARALIKAR (31196),		w.e.f 19-JUN-12
	EDN BRANCH	
SK MISHRA (31205),		w.e.f 19-JUN-12
PRASANT GUPTA (31202),		w.e.f 19-JUN-12
AN THAKUR (31203),		w.e.f 19-JUN-12
SK PANDEY (31204),		w.e.f 19-JUN-12
	MET BRANCH	
MADAN GOPAL (30680),		w.e.f 19-JUN-12
	ADM BRANCH	
P BHATT (31226),		w.e.f 19-JUN-12
ARPIT NEGI (31225),		w.e.f 19-JUN-12
PRAVEEN KUMAR (31224),		w.e.f 19-JUN-12
B SANDEEP KRISHNAN (31221),		w.e.f 19-JUN-12
RK PANDEY (31220),		w.e.f 19-JUN-12
S MISHRA (31231),		w.e.f 19-JUN-12
NK YADAV (31230),		w.e.f 19-JUN-12
	LGS BRANCH	
TH BASANTAKUMAR (31233),		w.e.f 19-JUN-12
A RATHEE (31232),		w.e.f 19-JUN-12
	ADM BRANCH	
(MS)SK SANDHU (31242),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)JK SAHANI (31241),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)N NARIYAL (31237),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)K JYOTI (31238),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)A AGGARWAL (31239),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)M SHALINI (31240),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)D MISHRA (31243),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)VL SEN (31244),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)C YADAV (31245),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)S SHARMA (31246),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)S SANGWAN (31247),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)SWATI SIROHI (31249),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)D TIWARI (31250),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)H BARTWAL (31251),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)MANJU KUMARI (31253),		w.e.f 19-JUN-12
	LGS BRANCH	
(MS)M BHARAN (31258),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)TANYA SINGH (31259),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)HK PARMAR (31255),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)R CHAUDHARY (31256),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)S TRIPATHI (31257),		w.e.f 19-JUN-12
	ACCTS BRANCH	
(MS)A BEDI (31266),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)AD KAUR (31265),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)P SARIN (31263),		w.e.f 19-JUN-12

(MS)URVASHI ROY (31262),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)S SHARMA (31261),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)KD NANDHINI (31260),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)P NEGI (31264),		w.e.f 19-JUN-12
	EDN BRANCH	
(MS)MOHANA CHANDRIKA (31268),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)E TUDU (31267),		w.e.f 19-JUN-12
	MET BRANCH	
(MS)KK DESHMUKH (30682),		w.e.f 19-JUN-12
(MS)VANDANA CHAUDHARY (30683),		w.e.f 19-JUN-12
	ADM BRANCH	
RUPINDER SINGH (31502),		w.e.f 18-DEC-12
PANICKK VEETIK RADHAKRISHNAN (31497),		w.e.f 18-DEC-12
KETAN RAMESH GHOSALKAR (31504),		w.e.f 18-DEC-12
ANOO SHANKAR (31505),		w.e.f 18-DEC-12
ANUPAM CHAUHAN (31503),		w.e.f 18-DEC-12
SUDHIR MANHAS (31501),		w.e.f 18-DEC-12
JAI KUMAR (31500),		w.e.f 18-DEC-12
VIJAYAN PRAVIN (31499),		w.e.f 18-DEC-12
SHREE KRISHNA YADAV (31498),		w.e.f 18-DEC-12
	LGS BRANCH	
DHIRENDRA PRATAP SINGH (31506),		w.e.f 18-DEC-12
AKHIL KUKERTI (31510),		w.e.f 18-DEC-12
DEEPAK MALHOTRA (31507),		w.e.f 18-DEC-12
KULDEEP JAIN (31508),		w.e.f 18-DEC-12
	ACCTS BRANCH	
VIKRAM SINGH RATHORE (31511),		w.e.f 18-DEC-12
	EDN BRANCH	
SEEMAB AKHTAR (31513),		w.e.f 18-DEC-12
BIJU M JOSEPH (31512),		w.e.f 18-DEC-12
	MET BRANCH	
AMIT DINESH JHA (31056),		w.e.f 18-DEC-12
	ADM BRANCH	
APARAJITA SINGH (31568),		w.e.f 18-DEC-12
KALPANA RAUTELA (31567),		w.e.f 18-DEC-12
VAISHNAVI TOKEKAR (31579),		w.e.f 18-DEC-12
SOPHIYA SOFAT (31578),		w.e.f 18-DEC-12
KARISHMA SANDHU (31577),		w.e.f 18-DEC-12
CHAITALI S DUSANE (31576),		w.e.f 18-DEC-12
PRATIKSHYA SAHANI (31574),		w.e.f 18-DEC-12
NIKITA (31573),		w.e.f 18-DEC-12
ANNIES JACOB (31572),		w.e.f 18-DEC-12
ANJALI SAHARAN (31571),		w.e.f 18-DEC-12
LOVELEEN BAKSHI (31570),		w.e.f 18-DEC-12
DOLLY SHUKLA (31575),		w.e.f 18-DEC-12
	LGS BRANCH	
ANJANA SHUKLA (31581),		w.e.f 18-DEC-12
SHEFALI ANAND (31582),		w.e.f 18-DEC-12
AMITA CHAUHAN (31587),		w.e.f 18-DEC-12
AANCHAL KAPOOR (31588),		w.e.f 18-DEC-12
ARTI BHUBSNESHWARI RANJAN (31585),		w.e.f 18-DEC-12
KIRAN NAIN (31586),		w.e.f 18-DEC-12
SNEHA TALIYAN (31584),		w.e.f 18-DEC-12

	ACCTS BRANCH	
HENA PORE (31590),		w.e.f 18-DEC-12
LORETTA SEBASTIAN (31591),		w.e.f 18-DEC-12
GANGA NIDHI AGARWAL (31589),		w.e.f 18-DEC-12
	EDN BRANCH	
RENUKA KRISHNAMURTHY (31592),		w.e.f 18-DEC-12
GEETANJALI SHARMA (31593),		w.e.f 18-DEC-12
KARUNANIDHI AISHWARYA (31594),		w.e.f 18-DEC-12
URAVASHI NARWAL (31596),		w.e.f 18-DEC-12
SAMEERA HOODA(31595),		w.e.f 18-DEC-12
	MET BRANCH	
PRIYANKA SARKAR (31059),		w.e.f 18-DEC-12
	ADM BRANCH	
AJIT SINGH (31515),		w.e.f 18-DEC-12
SHISHIRA KUMAR MISHRA (31514),		w.e.f 18-DEC-12
	ACCTS BRANCH	
KRISHAN SINGH (31516),		w.e.f 18-DEC-12
	ADM BRANCH	
HAOTHENEBEL VAIPHEL (31553),		w.e.f 18-DEC-12
VIVEK KUMAR JHA (31554),		w.e.f 18-DEC-12
ABHAY KUMAR (31555),		w.e.f 18-DEC-12
	LGS BRANCH	
RAHUL VASWAN (31556),		w.e.f 18-DEC-12
CHANDAN KUMAR (31558),		w.e.f 18-DEC-12
RAVINDRA CHAND BAWANE (31557),		w.e.f 18-DEC-12
	MET BRANCH	
RANJIT SINGH (31058),		w.e.f 18-DEC-12
HITESH ARORA (31057),		w.e.f 18-DEC-12
	F(P) BRANCH	
P MUDGEL (30765),	w.e.f	24-DEC-11
K MAHAJAN (30763),	w.e.f	24-DEC-11
H SINGH (30762),	w.e.f	24-DEC-11
CS THAKUR (30790),	w.e.f	24-DEC-11
S KULSHRESTHA (30789),	w.e.f	24-DEC-11
A KHUNTIA (30788),	w.e.f	24-DEC-11
ANOOP SL (30787),	w.e.f	24-DEC-11
S GHEMUD (30732),	w.e.f	24-DEC-11
J SINGH (30730),	w.e.f	24-DEC-11
P SHARMA (30780),	w.e.f	24-DEC-11

A KUMAR (30777),	w.e.f	24-DEC-11
M DHINDHWAL (30776),	w.e.f	24-DEC-11
JEO PRASHANT (30774),	w.e.f	24-DEC-11
GAGAN SAINI (30752),	w.e.f	24-DEC-11
R MAHTO (30751),	w.e.f	24-DEC-11
R SHEKHAR (30750),	w.e.f	24-DEC-11
DEEPAK PRASAD (30746),	w.e.f	24-DEC-11
RK KAJLA (30745),	w.e.f	24-DEC-11
TM CHENGAPPA (30743),	w.e.f	24-DEC-11
N SYAL (30742),	w.e.f	24-DEC-11
HJ SINGH (30741),	w.e.f	24-DEC-11
T TYAGI (30740),	w.e.f	24-DEC-11
A KHATRI (30739),	w.e.f	24-DEC-11
N SHARMA (30737),	w.e.f	24-DEC-11
SK POWAR (30761),	w.e.f	24-DEC-11
R MAHALANOBIS (30757),	w.e.f	24-DEC-11
Y ARYAN (30756),	w.e.f	24-DEC-11
PS PATHANIA (30755),	w.e.f	24-DEC-11
MK CHAUDHARY (30754),	w.e.f	24-DEC-11
TD DESALE (30766),	w.e.f	24-DEC-11
A SINGH (30725),	w.e.f	24-DEC-11
R DESWAL (30722),	w.e.f	24-DEC-11
V SUDHEEP (30721),	w.e.f	24-DEC-11
P GOPIKRISHNAN (30719),	w.e.f	24-DEC-11
N KORADIA (30717),	w.e.f	24-DEC-11
A SAXENA (30716),	w.e.f	24-DEC-11
KD DIXIT (30773),	w.e.f	24-DEC-11

F (N) BRANCH

P CHAUHAN (30833),	w.e.f	24-DEC-11
S ANAND (30793),	w.e.f	24-DEC-11
PAN DESAI (30735),	w.e.f	24-DEC-11
(MS) S SAINI (30855),	w.e.f	24-DEC-11
R KUMAR (30794),	w.e.f	24-DEC-11

TARUN KHARE
Wing Commander
Joint Director
Personnel Offrs-3 (D)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 210, Dated 29th August 2014—The President is pleased to make the following promotion :—

Sh. P Kerketta to be Sr. Private Secretary, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 March 2012 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs 5400/-.

Sh. L Ravi Kumar to be Sr. Accounts Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 14 Feb 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs 5400/-.

Sh. V Krishna Rao to be Sr. Stores Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan. 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600 – 39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/-.

The President is pleased to make the following promotions (Gp 'B') Gazetted to the under mentioned Officers for the Post and Date shown against their names:-

S. No.	Name	Post of promotion	Estt/Lab	Date of joining	Pay band and grade pay
01.	Smt. S Usha Sree	AO	ASL, Hyderabad	26.12.13	PB-2, GP-4600
02.	Sh. PL Srinivas Rao	AO	ASL, Hyderabad	26.12.13	PB-2, GP-4600
03	Smt. P Vijaya Kumari	AO	RCI, Hyderabad	01.01.14	PB-2, GP-4600
04	Sh. P Sanjeeva Kiran	AcO	RCI, Hyderabad	01.01.14	PB-2, GP-4600
05.	Smt. Usha Devi Sajeev	PS	ADE, Bangalore	02.05.14	PB-2, GP-4600

RAJEEV RANJAN SINHA
Dy Director (Pers)

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

No. 211, dated 1st September 2014—The President is pleased to make the following retirement in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against each name :—

RETIREMENT

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PREMATURE RETIREMENT
LT COL ANCY JOSEPH	NR-18570 Y	28/02/2013
LT COL SHASWATI RUDRA	NR-19041 Y	31/01/2013

SUNITA KAPOOR
Maj Gen
Addl DGMNS

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in